


भारत का राजपत्र
The Gazette of India
 प्राधिकार से प्रकाशित
 PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 10]

नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 5, 1966 (फाल्गुन 14, 1887)

No. 10]

NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 5, 1966 (PHALGUNA 14, 1887)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग I—खण्ड 4

PART I—SECTION 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों, आदि से सम्बंधित अधिसूचनाएं

Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave, etc. of Officers issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

(सेना विभाग)

मुख्य प्रशासन अधिकारी का कार्यालय
नई दिल्ली, दिनांक 5 मार्च 1966

सं० 548, तारीख 19 फरवरी 1966—राष्ट्रपति, श्री आई० के० सहगल, स्थायी अधीक्षक को 26 अक्टूबर, 1965 से 18 दिसम्बर, 1965 तक, स्थानापन्न रूप से पर्यवेक्षण अफसर के पद पर, श्री जे० एन० रायना, स्थायी अधीक्षक/अस्थायी पर्यवेक्षण अफसर के स्थान पर, जोकि अवकाश पर हैं, नियुक्त करने हैं।

अनुसंधान तथा विकास संगठन

सं० 551, तारीख 16 फरवरी 1966—राष्ट्रपति, श्री आई० डी० गुप्ता, स्थायी सी० एम० ओ० श्रेणी II को, 21 जनवरी, 1966 से, श्री ए० एम० गुप्ता के त्वादेशा हो जाने पर स्थानापन्न रूप से, सी० एन० ओ० श्रेणी I के पद पर, आगामी आदेश तक, नियुक्त करने हैं।

राष्ट्रपति, श्री पी० गौड़, स्थायी पर्यवेक्षण अफसर को, मुख्य प्रशासन अधिकारी के कार्यालय से त्वादेशा होने पर, 3 फरवरी 1966 से स्थानापन्न रूप से सी० एम० ओ० श्रेणी II के पद पर, श्री आई० डी० गुप्ता के स्थान पर, आगामी आदेश तक नियुक्त करते हैं।

वी० फराओ, सहायक मुख्य प्रशासन अधिकारी

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन

सं० 552, तारीख 16 फरवरी 1966—राष्ट्रपति महोदय महर्षि निम्नलिखित नियुक्ति करने हैं—

रक्षा विज्ञान सेवा

श्री नारायण मनशारामानी को उपकरण अनुसंधान तथा विकास संस्थापन, देहरादून में अस्थायी बरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी

484G1/65

श्रेणी-II के पद पर दो वर्ष की परबावधि पर नियुक्त किया—14 दिसम्बर, 1965 (पूर्वाह्न)।

एन० वी० स्वामीसाधन, अवर सचिव

सं० 565, तारीख 19 फरवरी 1966—राष्ट्रपति निम्नलिखित नियुक्तियां करने हैं—

कमान और स्टाफ

इन्डिपेंडेंट आर्टिलरी ब्रिगेड के कमान्डर के रूप में

लेफ्टिनेंट कर्नल (कार्यकारी ब्रिगेडियर) एस० एम० पद्महा आई० सी० 558), आर्टिलरी, 19 अक्टूबर, 1965

सप्लायमेंट कोर सेंटर और स्कूल का कमांडेंट के रूप में कर्नल (कार्यकारी ब्रिगेडियर) करम सिंह (आई० सी० 1274), वीर बक्र, 26 दिसम्बर, 1965

इंस्ट्रुमेंट कमान मुख्यालय के चीफ सिगनल अफसर के रूप में ब्रिगेडियर ड० जी० पेटनान (आई० सी० 795), सिगनल, 8 जनवरी, 1966

सेंट्रल कमान मुख्यालय के ब्रिगेडियर इन्चार्ज एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में

ब्रिगेडियर डी० एम० कल्हा (आई० सी० 615) ए० एस० सी० 9 जनवरी, 1966

एक लोरीड इन्फैंट्री ब्रिगेड के कमान्डर के रूप में

ब्रिगेडियर इन्चार्ज सिंह (आई० सी० 419), 10 जनवरी 1966

एक पाउन्टेन ब्रिगेड के कमान्डर के रूप में

लेफ्टिनेंट कर्नल (कार्यकारी ब्रिगेडियर) राम सिंह (आई० सी० 3198) मद्रास, 10 जनवरी 1966

सेना मुख्यालय

एम० जी० ओ० ब्रान्च में पी० पी० ओ०, के ब्रिगेडियर के रूप में

कर्नल (कार्यकारी ब्रिगेडियर) एम० सी० ददवाल (आई० सी० 2578), सैनिक आर्डनेन्स कौर, 11 जनवरी 1966

ई० ईन सी० ब्रान्च में वर्कस डायरेक्टर (वायु सेना) के रूप में

ब्रिगेडियर पी० डी० जोशी (आई० सी० 435) इंजीनियर, 14 जनवरी 1966

वी० सुब्रह्मण्यन, उप-सचिव

सेना मुख्यालय

ए० जी० शाखा

सं० 566, तारीख 22 फरवरी 1966—राष्ट्रपति, श्री एस० सी० गुप्ता, स्थायी अधीक्षक को, पर्यवेक्षण अफसर के पद पर स्थानापन्न रूप से, 22 दिसम्बर 65 से 29 जनवरी 66 तक, श्री एच० एस० दास, पर्यवेक्षण अफसर के स्थान पर जो कि अवकाश पर थे, नियुक्त करते हैं।

सं० 567, तारीख 22 फरवरी 1966—राष्ट्रपति, श्री पी० एस० नम्बियर, स्थायी अधीक्षक को, पर्यवेक्षण अफसर के पद पर स्थानापन्न रूप से, 27 दिसम्बर, 65 से 1 फरवरी 66 तक, श्री ओ० पी० जैनी, पर्यवेक्षण अफसर के स्थान पर जो कि अवकाश पर थे, नियुक्त करते हैं।

सं० 568, तारीख 22 फरवरी 1966—राष्ट्रपति, श्री आर० पी० भटनागर, स्थायी अधीक्षक को पर्यवेक्षण अफसर के पद पर स्थानापन्न रूप से, 30 दिसम्बर 1965 से 11 फरवरी 1966 तक, श्री के० पी० खन्ना, स्थायी पर्यवेक्षण अफसर के स्थान पर जो कि अवकाश पर थे, नियुक्त करते हैं।

सं० 569, तारीख 22 फरवरी 1966—राष्ट्रपति, श्री चवा शंकरा राव, अस्थायी सांख्यिक जांचकार, सेना सांख्यिक संस्था, को अस्थायी रूप से सांख्यिकी अफसर के पद पर, 1 फरवरी 1966 से आगामी आदेश तक, श्री एच० सी० मित्तल स्थानापन्न सांख्यिकी अफसर के स्थान पर, जिनका परावर्तन कर दिया गया है, नियुक्त करते हैं।

सं० 570, तारीख 22 फरवरी 1966—राष्ट्रपति, श्री गोलापाली सैम्युल, सांख्यिक जांचकार, को अस्थायी रूप से सांख्यिकी अफसर के रिक्त पद पर, सेना सांख्यिक संस्था में, 7 फरवरी 1966 से आगामी आदेश तक, नियुक्त करते हैं।

सं० 571, तारीख 22 फरवरी 1966—राष्ट्रपति निम्न-लिखित नियुक्तियां करते हैं :—

श्री ओ० पी० सूद, स्थायी पर्यवेक्षण अफसर को, सी० एस० ओ० श्रेणी 2 के पद पर स्थानापन्न रूप से, 6 सितम्बर 65 से 25 नवम्बर 65 तक, मेजर एच० ई० माईकल के स्थान पर।

श्री एम० एल० साहनी, स्थायी अधीक्षक को, पर्यवेक्षण अफसर के पद पर स्थानापन्न रूप से, 10 सितम्बर 65 से 25 नवम्बर 65 तक, ओ० पी० सूद पर्यवेक्षण अफसर के स्थान पर जिनकी पदोन्नति कर दी गई थी।

एम० डी० डालाकोटी, सहायक मुख्य प्रशासन अधिकारी

सं० 572, तारीख 17 फरवरी 1966—राष्ट्रपति निम्न-लिखित नियुक्तियां करते हैं :—

सेना मुख्यालय

एम० जी० ओ० शाखा

श्री जी० आर० चेतल, स्थायी अधीक्षक को, स्थानापन्न रूप से पर्यवेक्षण अफसर के पद पर, 17 जून 65 से 20 जुलाई 65 तक, श्री ओ० पी० सक्सेना के स्थान पर, जो कि अवकाश पर थे।

श्री ओ० पी० खन्ना, स्थायी पर्यवेक्षण अफसर को, स्थानापन्न रूप से सी० एस० ओ० श्रेणी 2 के पद पर, 8 जुलाई, 65 से 4 सितम्बर 65 तक, मेजर एन० डी० मसीन के स्थान पर जो कि कोर्स पर थे।

श्री आर० एन० महरोत्रा, स्थायी अधीक्षक को, स्थानापन्न रूप से पर्यवेक्षण अफसर के पद पर, 8 जुलाई 65 से 4 सितम्बर 65 तक, श्री ओ० पी० खन्ना के स्थान पर जिनकी पदोन्नति सी० एस० ओ० श्रेणी 2 के पद पर कर दी गई थी।

श्री ओ० पी० गुप्ता, स्थायी पर्यवेक्षण अफसर को, स्थानापन्न रूप से, सी० एस० ओ० श्रेणी 2 के पद पर, 5 जुलाई 65 से 18 सितम्बर 65 तक, मेजर दलीप सिंह के स्थान पर जो कि कोर्स पर थे।

श्री आर० एल० टन्डन, स्थायी अधीक्षक को, स्थानापन्न रूप से पर्यवेक्षण अफसर के पद पर, 5 जुलाई 65 से 4 अगस्त 65 तक, श्री ओ० पी० गुप्ता के स्थान पर जिनकी पदोन्नति सी० एस० ओ० श्रेणी 2 के पद पर कर दी गई थी।

श्री जी० आर० चेतल, स्थायी अधीक्षक को, स्थानापन्न रूप से पर्यवेक्षण अफसर के पद पर, 5 अगस्त 65 से 18 सितम्बर 65 तक, श्री ओ० पी० गुप्ता के स्थान पर जिनकी पदोन्नति सी० एस० ओ० श्रेणी 2 के पद पर कर दी गई थी।

श्री ओ० पी० सक्सेना, स्थायी अधीक्षक/अस्थायी पर्यवेक्षण अफसर को, स्थानापन्न रूप से, सी० एस० ओ० श्रेणी 2 के पद पर, 30 अगस्त 65 से 30 सितम्बर 65 तक, मेजर वी० के० पिल्लै के स्थान पर जो कि कोर्स पर थे।

श्री राजेन्द्र परकाश, स्थायी अधीक्षक को, स्थानापन्न रूप से पर्यवेक्षण अफसर के पद पर, 30 अगस्त 65 से 30 सितम्बर 65 तक, श्री ओ० पी० सक्सेना के स्थान पर जिनकी पदोन्नति सी० एस० ओ० श्रेणी 2 के पद पर कर दी गई थी।

श्री ओ० पी० खन्ना, स्थायी पर्यवेक्षण अफसर को, स्थानापन्न रूप से, सी० एस० ओ० श्रेणी 2 के पद पर, 1 अक्टूबर 65 से 1 नवम्बर 65 तक, मेजर वी० के० पिल्लै के स्थान पर जो कि कोर्स पर थे।

श्री जी० आर० चेतल, स्थायी अधीक्षक को स्थानापन्न रूप से, पर्यवेक्षण अफसर के पद पर, 1 अक्टूबर 65 से 1 नवम्बर 65 तक, श्री ओ० पी० खन्ना के स्थान पर जिनकी पदोन्नति सं० एस० ओ० श्रेणी 2 के पद पर कर दी गई थी।

श्री ओ० पी० खन्ना, स्थायी पर्यवेक्षण अफसर को, स्थानापन्न रूप से, सी० एस० ओ० श्रेणी 2 के पद पर, 2 नवम्बर 65 से 4 दिसम्बर 65 तक, श्री एस० एल० जैन के स्थान पर जो कि अवकाश पर थे।

श्री आर० एल० टन्डन, स्थायी अधीक्षक को, स्थानापन्न रूप से, पर्यवेक्षण अफसर के पद पर, 2 नवम्बर 65 से 4 दिसम्बर 65 तक, श्री ओ० पी० खन्ना के स्थान पर जिनकी पदोन्नति सी० एस० ओ० श्रेणी 2 के पद पर कर दी गई थी।

श्री बनवारी लाल, स्थायी सी० एस० ओ० श्रेणी 2 को, स्थानापन्न रूप से, सी० एस० ओ० श्रेणी 1 के पद पर, 8 नवम्बर 65 से 8 दिसम्बर 65 तक, श्री एन० एल० बत्रा के स्थान पर जो कि अवकाश पर थे।

श्री ओ० पी० गुप्ता, स्थायी पर्यवेक्षण अफसर को, सी० एस० ओ० श्रेणी 2 के पद पर स्थानापन्न रूप से, 8 नवम्बर 65 से 8 दिसम्बर 65 तक, श्री बनवारी लाल के स्थान पर जिनकी पदोन्नति सी० एस० ओ० श्रेणी 1 के पद पर कर दी गई थी।

श्री जी० आर० चेतल, स्थायी अधीक्षक को, स्थानापन्न रूप से पर्यवेक्षण अफसर के पद पर, 8 नवम्बर 65 से, 8 दिसम्बर 65 तक, श्री ओ० पी० गुप्ता के स्थान पर जिनकी पदोन्नति सी० एस० ओ० श्रेणी 2 के पद पर कर दी गई थी।

श्री एन० के० सेन गुप्ता, स्थायी अधीक्षक/अस्थायी पर्यवेक्षण अफसर को स्थानापन्न रूप से, सी० एस० ओ० श्रेणी 2 के पद पर, 6 अक्टूबर 65 से 5 फरवरी 66 तक, मेजर बी० एम० खन्ना, डी० ए० डी० ई० एम० ई०, के स्थान पर, जो कि कोर्स पर थे।

श्री चन्दर भान, स्थायी अधीक्षक, को स्थानापन्न रूप से पर्यवेक्षण अफसर के पद पर, 6 अक्टूबर 65 से 5 फरवरी 66 तक, श्री एन० के० सेन गुप्ता के स्थान पर जिनकी पदोन्नति कर दी गई थी।

श्री मनजीत सिंह, स्थायी अधीक्षक को, स्थानापन्न रूप से पर्यवेक्षण अफसर के पद पर, 6 अक्टूबर 65 से 5 फरवरी 66 तक, कैप्टेन राज कुमार के स्थान पर जिनकी बदली कर दी गई थी।

वी० फराबो, सहायक मुख्य प्रशासन अधिकारी

सं० 573, तारीख 19 फरवरी 1966—राष्ट्रपति निम्नलिखित नियुक्तियां करते हैं :—

सेना मुख्यालय

ई० इन० सी० शाखा

श्री आर० सी० सूद, स्थायी अधीक्षक को, स्थानापन्न रूप से पर्यवेक्षण अफसर के पद पर, 16 अगस्त 65 से 15 सितम्बर 65 तक, श्री एस० एस० मेहता के स्थान पर जो कि अवकाश पर थे।

श्री जे० सी० सैनी, स्थायी अधीक्षक को, स्थानापन्न रूप से पर्यवेक्षण अफसर के पद पर, 27 अक्टूबर 65 से 24 दिसम्बर 65 तक, श्री के० बी० लाल के स्थान पर जो कि अवकाश पर थे।

श्री ए० के० दास, स्थायी अधीक्षक को, स्थानापन्न रूप से पर्यवेक्षण अफसर के पद पर, 2 नवम्बर 65 से 2 दिसम्बर 65 तक, श्री एच० के० खन्ना के स्थान पर जो कि अवकाश पर थे।

श्री धरमवीर, स्थायी अधीक्षक को, स्थानापन्न रूप से पर्यवेक्षण अफसर के पद पर, 1 नवम्बर 65 से 3 दिसम्बर 65 तक, श्री एस० ए० आर० जसोदास के स्थान पर जो कि अवकाश पर थे।

श्री हजारा सिंह, स्थायी सहायक/अस्थायी अधीक्षक को, स्थानापन्न रूप से पर्यवेक्षण अफसर के पद पर, 23 नवम्बर 65 से 24 दिसम्बर 65 तक, श्री खजान सिंह के स्थान पर जो कि अवकाश पर थे।

एम० डी० डालाकोटी, सहायक मुख्य प्रशासन अधिकारी

निरीक्षण महानिदेशालय

सं० 574, तारीख 19 फरवरी 1966—राष्ट्रपति निम्नलिखित नियुक्तियां करते हैं :—

श्री जे० पी० गोयल, स्थायी पर्यवेक्षण अधिकारी को 10 जनवरी 1966 से 11 फरवरी, 1966 तक स्थानापन्न रूप से सिविलियन स्टाफ अफसर श्रेणी II, श्री श्याम सुन्दर, स्थायी पर्यवेक्षण अफसर/अस्थायी सिविलियन स्टाफ अफसर श्रेणी II के स्थान पर, जो छुट्टी पर हैं।

श्री एस० परशुराम, स्थायी अधीक्षक को 10 जनवरी, 1966 से 11 फरवरी 1966 तक स्थानापन्न रूप से पर्यवेक्षण अफसर, श्री जे० पी० गोयल, स्थायी पर्यवेक्षण अफसर के स्थान पर, जिनकी पदोन्नति हो गई है।

सं० 575, तारीख 14 फरवरी 1966—राष्ट्रपति निम्नलिखित नियुक्तियां करते हैं :—

सेना मुख्यालय

एम० एस० शाखा

श्री जे० पी० भटनागर, स्थायी पर्यवेक्षण अफसर को 24 सितम्बर 65 से 22 जनवरी 66 तक स्थानापन्न सिविलियन स्टाफ अफसर श्रेणी II के पद पर, मेजर सी० विनूगोपाल, डी० एम० एस० के० स्थान पर, जिनकी उन्नति हो गई थी।

श्री आर० सी० उपाध्याय, स्थायी अधीक्षक को, स्थानापन्न पर्यवेक्षण अफसर के पद पर, 24 सितम्बर 65 से 22 जनवरी 66 तक, श्री जे० पी० भटनागर के स्थान पर।

के० एस० सुब्रह्मण्यं, सहायक मुख्य प्रशासन अधिकारी

सं० 577, तारीख 14 फरवरी 1966—राष्ट्रपति निम्नलिखित नियुक्तियां करते हैं :—

नियमित सेना

सैनिक सेवा कोर (मोटर परिवहन)

नायब सूबेदार (धर्म शिक्षक)—विशेष सूची में
राम प्रशाद शर्मा (जे० सी०-37348) 26 सितम्बर, 1964

शशी भूषण शर्मा (जे० सी०-37349) 27 नवम्बर 1964।

सी० वी० नारायणन, अवर सचिव

सं० 578, तारीख 19 फरवरी 1966—राष्ट्रपति निम्नलिखित अफसर को 1 जनवरी 1966 से 31 दिसम्बर 1966 तक एक वर्ष की सेवा-अवधि में वृद्धि प्रदान करते हैं :—

मेजर-जनरल जोगिन्दर सिंह (आई० सी० 203)।

डी० आर० कोहली, संयुक्त सचिव

सं० 582, तारीख 17 फरवरी 1966—राष्ट्रपति, निम्नलिखित भूतपूर्व जे० सी० ओ० को सक्तीय सूची पर उसी रैंक में सहायक भर्ती अफसर के रूप में पुनर्नियुक्त करते हैं :—

नियमित सेना

भर्ती अमला

नं० जे० सी० 12761 सूबेदार मेजर (अवैतनिक कैप्टन) रवन सिंह, बिहार रेजिमेंट को सूबेदार मेजर ग्रुप 'एफ' के रूप में—10 दिसम्बर 65

नं० जे० सी० 32750 सूबेदार (अवैतनिक लेफ्टिनेन्ट) छोदु राम, ए० एस० सी० (स्प्लार्ड) को सूबेदार ग्रुप 'एफ' के रूप में—17 दिसम्बर 65

गुरु दत्ता चौधरी, अवर सचिव

सं० 586, तारीख 19 फरवरी 1966—राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं :—

नियमित सेना

नियमित कमीशन

(अल एडवोकेट जनरल का विभाग)

स्थायी कर्नल के रैंक में

लेफ्टिनेन्ट कर्नल ए० वी० मुजुमदार (आई० सी० 3757)—
10 अक्टूबर 1964

लेफ्टिनेन्ट कर्नल डी० वी० सिद्धये (आई० सी० 3904) —
28 फरवरी 1965

वी० सुब्रह्मण्यन, उप-सचिव

सं० 588, तारीख 17 फरवरी 1966 — राष्ट्रपति निम्न-
लिखित पदोन्नतियां करते हैं :—

नियमित सेना

सैनिक सेवा कोर (पशु परिवहन)

रिसालदार से रिसालदार मेजर के रैंक में

गुर्दास सिंह (जे० सी० 3081) — 1 नवम्बर 1965

मोहिन्दर सिंह (जे० सी०-3084) — 16 दिसम्बर 1965

नायब रिसालदार से रिसालदार के रैंक में

राम कुमार (जे० सी०-17734), गुनानंद (जे० सी०-
17735) — 1 नवम्बर 1965

बदरी दत्त सती (जे० सी०-17736) — 29 नवम्बर,
1965

गोविन्द सिंह रावत (जे० सी०-17737) — 16 दिसम्बर
1965

सतीश चन्द्र शंटीरिया (जे० सी०-17738) — 18 दिसम्बर
1965

पटरस बेसरा (जे० सी०-17739) — 22 दिसम्बर 1965

विजय सिंह (जे० सी०-17740) — 1 जनवरी 1966

सूबेदार (क्लर्क सामान्य इयूटी) से सूबेदार मेजर

(क्लर्क सामान्य इयूटी) के रैंक में

कसतूरी लाल (37039-जे० सी०) सैनिक सेवा कोर— 14
जनवरी 1964

कवसेरी कृष्णा अयर रामास्वामी (37079-जे० सी०)
सैनिक सेवा कोर— 17 नवम्बर, 1965

भगवान दास हांडा (37088-जे० सी०) सैनिक सेवा कोर.
8 फरवरी, 1966

नायब सूबेदार (क्लर्क सामान्य इयूटी) से सूबेदार

(क्लर्क सामान्य इयूटी) के रैंक में

खान चन्द झांब (37261-जे० सी०); गियान चंद नांगिया
(37317-जे० सी०) सैनिक सेवा कोर— 1 मार्च 1961

दीना नाथ कांडा (जे० सी०-13130); राम देयाल
सिंह (जे० सी०-13131); सैनिक सेवा कोर— 26 नोवम्बर
1965

गुलजारी लाल (जे० सी०-13132) सैनिक सेवा कोर— 8
फरवरी 1966

हवलदार (क्लर्क सामान्य इयूटी) (स्टाफ इयूटी)

से नायब सूबेदार (क्लर्क सामान्य इयूटी) (स्टाफ इयूटी)

के रैंक में

गुवचन सिंह (सं० 7129489 अब जे० सी०-37321)
सैनिक सेवा कोर— 22 नोवम्बर 1964

रतन लाल शर्मा (सं० 7129559 अब जे० सी०-37322)
सैनिक सेवा कोर— 12 दिसम्बर 1964

इक्वाल सिंह (सं० 7129816 अब जे० सी०-37323)
सैनिक सेवा कोर— 1 फरवरी 1965

अच्छर मल शर्मा (सं० 7129514 अब जे० सी०-37324)
सैनिक सेवा कोर— 28 फरवरी 1965

मनिंद्रा नाथ बक्शी (सं० 7128117 अब जे० सी०-37325);
निरलोकी नाथ वर्मा (सं० 7129412 अब जे० सी०-37326);
शिशुपाल सिंह चौहान (सं० 7129429 अब जे० सी०-37327);
बिरेन्द्रा नाथ गंगुली (सं० 7130976 अब जे० सी०-37328);
ओयदेव कुमार मुखरजो (सं० 6852804 अब जे० सी०-37329);
जीत सिंह साहनी (सं० 7129513 अब जे० सी०-37330);

कशमीर, लाल (सं० 7130978 अब जे० सी०-37331);
ओंकार स्वरूप भटनागर (सं० 7129255 अब जे० सी० 37332);
सैनिक सेवा कोर— 1 मई 1965

गियान सिंह (सं० 7129493 अब जे० सी०-37333);
मांहन मिह (सं० 7129416 अब जे० सी०-37334) सैनिक
सेवा कोर— 26 मई 1965

राम लाल मिशरा (सं० 7128220 अब जे० सी०-37335);
किष्काकेमुरायल नारायणन भासकरा पानिकर (सं० 7129537
अब जे० सी०-37336); मोनिंद्रा मोहन तन्नावर्ती (सं०
7129358 अब जे० सी०-37337) सैनिक सेवा कोर— 22
जुलाई 1965

पुलिचिममवीटिल इड्डुकुला चाकु (सं० 7971990 अब जे०
सी०-37338); धरमपाल मुद्गाग (सं० 7128207 अब जे०
सी०-37339); भीम सैन (सं० 7983466 अब जे० सी०-
37340); बालनाथेश्वर अरुलप्पन (सं० 7129361 अब
जे० सी०-37341); भेंदु राम (सं० 7984560 अब जे० सी०-
37342); निवरन चंद्रा साहा (सं० 7128451 अब जे० सी०-
37343); हरीराम (सं० 7128336 अब जे० सी०-37344)
सैनिक सेवा कोर— 10 अगस्त 1965

असवोनी कुमार पांडा (सं० 7129354 अब जे० सी०-
37345); अप्पनकोयल वेनकटारामा मंकरन (सं० 7128497
अब जे० सी०-37346) सैनिक सेवा कोर— 4 सितम्बर 1965

**हवलदार (क्लर्क मण्डार) से नायब सूबेदार (क्लर्क
मण्डार) के रैंक में**

माखन लाल चंदा (सं० 6629427 अब जे० सी०-36983)
सैनिक सेवा कोर— 1 दिसम्बर 1964

मुजान्त सिंह (सं० 6632531 अब जे० सी०-36984);
सनवात सिंह (सं० 6633046 अब जे० सी०-36985);
तिलक राज (सं० 6633283 अब जे० सी०-36986); निर्मल
सिंह (सं० 6632799 अब जे० सी०-36987); दर्शोप सिंह
(सं० 6628014 अब जे० सी०-36988); मुचा सिंह (सं०
6628344 अब जे० सी०-36989); मेवासिंह (सं० 6628094
अब जे० सी०-36990); सूरज प्रकाश (सं० 6628220
अब जे० सी०-36991); भगवान दाम (सं० 6628989
अब जे० सी०-36992); राम अश्वर्या त्रिपाठी (सं० 6629405
अब जे० सी०-36993); प्रीतम सिंह (सं० 6628244 अब जे०
सी०-36994); सरनजित सिंह गिन (सं० 6628279 अब
जे० सी०-36995); हरदियाल सिंह आंभो (सं० 6628326
अब जे० सी०-36996); धरम सिंह यादवा (सं० 6628360
अब जे० सी०-36997); रतन चंद (सं० 6628438 अब जे०
सी०-36998); अयिलियाथ कुट्टा कुन्हाप्पा नम्बयर (सं०
6729881 अब जे० सी०-36999); विहारी लाल (सं०
6629266 अब जे० सी०-37000); करम सिंह (सं० 6629269
अब जे० सी०-37001); विग्वा नाथ प्रसाद (सं० 6629280
अब जे० सी०-37002); रिद्रो राम (सं० 6629301 अब जे०
सी०-37003); मेहर सिंह (सं० 6629319 अब जे० सी०-
37004); दीदार सिंह (सं० 6629349 अब जे० सी०-37005);
जैपाल सिंह राना (सं० 1006664 अब जे० सी०-37006);
कृष्ण देव सिंह (सं० 6629373 अब जे० सी०-37007);
जगदेव सिंह सांढी (सं० 6629358 अब जे० सी०-37008);
मंगत राम (सं० 6629391 अब जे० सी०-37009); वडक्के
नरयिल थोमस जैकुव (सं० 6631728 अब जे० सी०-37010);
राम नरायन सिंह (सं० 6631645 अब जे० सी०-37011);
हरमोहन लाल (सं० 6629406 अब जे० सी०-37012);
राम नरायन (सं० 6629407 अब जे० सी०-37013);
नंतोख चंद कटोच (सं० 6629452 अब जे० सी०-37014);

हरनेक सिंह (सं० 6340385 अब जे० सं०-37015);
बिर्जे लाल (सं० 6340383 अब जे० सं०-37016); हुकम
चंद (सं० 6629449 अब जे० सं०-37017); मोहर चंद
(सं० 8508449 अब जे० सं०-37018); धरम सिंह (सं०
6629468 अब जे० सं०-37019); मर्ती लाल साहो (सं०
8635402 अब जे० सं०-37020); जितेन्द्रा चंद्रा लंघ (सं०
6629284 अब जे० सं०-37021); सुलतान सिंह (सं०
6629303 अब जे० सं०-37022); गुदियान सिंह वेदी
(सं० 6628962 अब जे० सं०-37023) सैनिक सेवा कोर—
1 फरवरी 1965 ।

मानिकल धेवर्मा जासेफ (सं० 6341091 अब जे० सं०-
37024) सैनिक सेवा कोर—18 अप्रैल 1965 ।

**हवलदार (मोटर परिवहन) से नायब सूबेदार (मोटर
परिवहन) के रैंक में**

गिवानी राम (सं० 6548005 अब जे० सं०-36953)
सैनिक सेवा कोर—17 जून 1965 ।

अलबर्ट डोंसोजा (सं० 6569987 अब जे० सं०-36954);
जंया राज (सं० 6566027 अब जे० सं०-36955) सैनिक
सेवा कोर—18 जून 1965 ।

अलमंडा फातप (सं० 6543182 अब जे० सं०-36956)
सैनिक सेवा कोर—19 जून 1965 ।

जागरदेव सिंह (सं० 6535733 अब जे० सं०-36957)
सैनिक सेवा कोर—23 जून 1965 ।

बखनकंडी कुन्हीकृष्णन नायर (सं० 6569652 अब जे०
सं०-36958) सैनिक सेवा कोर—24 जून 1965 ।

मुनुसू पेरिया करप्पा थंवर रामासामी (सं० 6569648
अब जे० सं०-36959) सैनिक सेवा कोर—7 जुलाई 1965 ।

(2 जुलाई 1965 से वेतन तथा भत्ता के बगैर
ज्येष्ठता देते हुए)

बालाकृष्णा कुरुप (सं० 6542706 अब जे० सं०-36960)
सैनिक सेवा कोर—3 जुलाई 1965 ।

बिन्दा प्रसाद सिंह (सं० 6542170 अब जे० सं०-36961)
सैनिक सेवा कोर—5 जुलाई 1965 ।

बबुबिलाथिल नारायणापिल्ले सिवासंकरन नायर (सं०
6574279 अब जे० सं०-36962) सैनिक सेवा कोर—8
जुलाई 1965 ।

जिले सिंह (सं० 6533732 अब जे० सं०-36963);
बीबिल शर्मा (सं० 6544592 अब जे० सं०-36964); वाला
दत्त (सं० 6575941 अब जे० सं०-36965) सैनिक सेवा
कोर—9 जुलाई 1965 ।

परशोतम (सं० 6528019 अब जे० सं०-36966)
सैनिक सेवा कोर—11 जुलाई 1965 ।

सुरेश नंद (सं० 6537413 अब जे० सं०-36967) सैनिक
सेवा कोर—15 अगस्त 1965 ।

(11 जुलाई 1965 से वेतन तथा भत्ता के बगैर
ज्येष्ठता देते हुए)

तारा चंद (सं० 6540320 अब जे० सं०-36968)
सैनिक सेवा कोर—25 जुलाई 1965 ।

(12 जुलाई 1965 से वेतन तथा भत्ता के बगैर
ज्येष्ठता देते हुए)

मूरज नारायन (सं० 6533265 अब जे० सं०-36969)
सैनिक सेवा कोर—12 जुलाई 1965 ।

परभू दियाल (सं० 6541502 अब जे० सं०-36970)
सैनिक सेवा कोर—14 जुलाई 1965 ।

छाट्ट (सं० 6534331 अब जे० सं०-36971) सैनिक
सेवा कोर—27 जुलाई 1965 ।

(14 जुलाई 1965 से वेतन तथा भत्ता के बगैर
ज्येष्ठता देते हुए)

राम सरूप (सं० 6537705 अब जे० सं०-36972)
सैनिक सेवा कोर—14 जुलाई 1965 ।

सुरर सिंह (सं० 6540754 अब जे० सं०-36973)
सैनिक सेवा कोर—15 जुलाई 1965 ।

माधो राम (सं० 6537714 अब जे० सं०-36974)
सैनिक सेवा कोर—17 जुलाई 1965 ।

खरीचिदाविदा मखतोन पदमनाभा कुरुप (सं० 6539905
अब जे० सं०-36975) सैनिक सेवा कोर—18 जुलाई 1965 ।

पियारे लाल (सं० 8522142 अब जे० सं०-36976)
सैनिक सेवा कोर—19 जुलाई 1965 ।

जांगिदा चौधरी (सं० 6548453 अब जे० सं०-36977)
सैनिक सेवा कोर—21 जुलाई 1965 ।

राम चंद्र (सं० 1002855 अब जे० सं०-36978);
बाबा दीन (सं० 6530066 अब जे० सं०-36979) सैनिक
सेवा कोर—22 जुलाई 1965 ।

फतेह सिंह (सं० 6582483 अब जे० सं०-36980) सैनिक
सेवा कोर—24 जुलाई 1965 ।

नरायन सिंह (सं० 6582423 अब जे० सं०-36981);
जंय सिंह (सं० 6581987 अब जे० सं०-36982) सैनिक सेवा
कोर—25 जुलाई 1965 ।

मंगारदेव सिंह (सं० 6581827 अब जे० सं०-37347)
सैनिक सेवा कोर—24 जुलाई 1965 ।

सं० वी० नारायणन, अवर सचिव

सं० 589, तारीख 16 फरवरी 1966—राष्ट्रपति निम्न-
लिखित पदोन्नतियां करते हैं :—

नियमित सेना

इन्फैंट्री

बिहार रेजिमेन्ट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार त्रिवेनी सिंह (सं० 4231864 अब जे० सं०-
37501)—1 दिसम्बर 1965 ।

हवलदार दीद सांगा (सं० 4230710 अब जे० सं०-37502);
हवलदार एडरन टिकी (सं० 4232240 अब जे० सं०-37503—
4 दिसम्बर 1965 ।

महार रेजिमेन्ट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार नागर मल (सं० 9030499 अब जे० सं०-
37504)—22 दिसम्बर 1965 ।

नायब सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

हवलदार कर्लक हरदियाल सिंह हीरा (सं० 5421148
अब जे० सं०-37505)—18 जनवरी 1966 ।

इन्टेलिजेंस कोर

नायब सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

हवलदार क्लर्क गोपीका रंजन दास (सं० 7536321 अब
जे० सं०-37506)—17 जनवरी 1966 ।

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार भूपाल सिंह फरसवान (सं० 4034962 अब जे० सी०-37507)—15 जनवरी 1966।

एम० ई० एस० मिल केडर**नायब सूबेदार के रैंक में**

हवलदार हरी सिंह (सं० 1418016 अब जे० सी०-37508)
—8 नवम्बर 1965।

जी० मेन, अवर सचिव

सेना मुख्यालय**ए० जी० शाखा**

सं० 591, तारीख 22 फरवरी 1966—राष्ट्रपति, श्री एच० सी० मिल्ल, स्थानापन्न सॉल्विकी अफसर का, अपने सॉल्विकी जांचकार के पद पर, 1 फरवरी 1966 से परावर्तन करते हैं।

एम० डी० डालाकोटी, सहायक मुख्य प्रशासन अधिकारी।

सेना मुख्यालय**ई० इन० सी० शाखा**

सं० 593, तारीख 21 फरवरी 1966—रक्षा मंत्रालय का; आर्गसूचना सं० 2190 तारीख 14 सितम्बर 1962 जो कि 29 सितम्बर 1962 के राज-पत्र में प्रकाशित हुई, जहाँ तक वो श्री एच० सी० लाल, अस्थायी ए० एस० डब्लू० की छुट्टी से सम्बन्धित है, रद्द की जाती है।

एम० एस० तनेजा, सहायक मुख्य प्रशासन अधिकारी।

(नौसेना विभाग)

सं० 594, तारीख 23 फरवरी 1966—राष्ट्रपति निम्न-लिखित नियुक्त करते हैं :—

श्री प्रभात चन्द्र घोष, स्थायी चोफ ड्राफ्ट्समैन, सिविलियन टेक्निकल अफसर (डिजाइन) के पद पर स्थानापन्न रूप से दो वर्ष की परख अवधि पर—28 दिसम्बर 1965।

एन० बी० स्वामीनाथन, अवर सचिव।

(वायु सेना विभाग)

सं० 603, तारीख 16 फरवरी 1966—राष्ट्रपति निम्न-लिखित को वायुसेना अनुदेश 49 और 50/51 और 19/63 (संशोधित) के अन्तर्गत जो भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र सं० वा० से० मु०/23967/5/पी० पी० एण्ड आर०/7665/डी० (ए०-III) तारीख 4 अगस्त 1962, वा० से० मु०/23949/145/पी० पी० एण्ड आर०/12590/डी० (ए०-III) तारीख 29 नवम्बर 1962 (संशोधित) और वा० से० मु०/23967/8/पी० पी० एण्ड आर०/7206/डी० (ए०-III) तारीख 23 जुलाई 1962 के साथ पठनीय है, स्थायी कमीशन (परखाधीन) प्रदान करते हैं :—

भारतीय वायुसेना**एडमिनिस्ट्रटिव एण्ड स्पेशल ड्यूटी ब्रांच****(भूतपूर्व फ्लाइट कैंडेट पाइलट अफसर के पद पर)**

महापाल सिंह तोमर (9368); प्रवीर कुमार बसु (9369)
—10 अप्रैल 1965।

इंक्विपमेंट ब्रांच

(भूतपूर्व फ्लाइट कैंडेट पाइलट अफसर के पद पर)

अशोक कुमार (9371)—10 अप्रैल 1965।

(राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के भूतपूर्व फ्लाइट कैंडेट पाइलट अफसर के पद पर)

हरि पाल सिंह (9370)—10 अप्रैल 1965।

एजुकेशन ब्रांच

(भूतपूर्व फ्लाइट कैंडेट पाइलट अफसर के पद पर)

मिठू लाल शर्मा (9341); हर पाल सिंह (9343)
रमेश चन्द्र जैन (9344); रुद्र दत्त शर्मा (9346); महा-
देवन शिवकुमार (9347); अय्यागरी हरनाथ बाजू (9348);
रवीन्द्रनाथ शर्मा (9349); अशोक कुमार मुकजी (9350);
अशोक नारायण देशपांडे (9351); राज कुमार भाटिया
(9352); प्रकाश चन्द्र भटनागर (9353); जामफ राज-
रेयिमन सलेथ (9354); थोटा दुर्गा कौटो प्रभाद राव (9355)
सुरेश चन्द्र शर्मा (9356); उदय भास्कर मूर्ती भमिदीपती
(9357); देवेन्द्र कुमार शर्मा (9358); शिव कुमार कश्यप
(9359); राजेन्द्र सिंह भदौरिया (9360); राजिन्द्र कुमार
वशिष्ट (9361); हिन्दुपुर श्रीनिवासचर कृष्णामूर्थी (9362);
रमेश चन्द्र एम० राय (9363)—27 मार्च 1965।

उमा कान्त बैथ (9372); मय्य प्रकाश रघुवंशी (9373);
दिनकर दमोदर देशपांडे (9374); राम प्रकाश कपूर (9375);
किरन चन्द्र वैद (9376)—10 अप्रैल 1965।

(भूतपूर्व वायु सेनिक फ्लाइट कैंडेट पाइलट अफसर के पद पर)

(213765) सार्जेंट ज़ोरावर सिंह महोत्वा (9342);
(206902) सार्जेंट कर्णो राम यादव (9345)—27 मार्च
1965।

सं० 604, तारीख 16 फरवरी 1966—राष्ट्रपति निम्न-
लिखित को वायुसेना अनुदेश 49/51 (संशोधित) के अन्तर्गत
जो भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय पत्र सं० वायुसेना मु०/23967/
8/पी० पी० एण्ड आर०/7206/डी० (ए०-III) दिनांक 23 जुलाई
1962 के साथ पठनीय है, स्थायी कमीशन (परखाधीन) प्रदान
करते हैं :—

भारतीय वायुसेना**एजुकेशन ब्रांच**

(भूतपूर्व फ्लाइट कैंडेट पाइलट अफसर के पद पर)

वीरेन्द्र कुमार (7778)—19 अक्टूबर 1963।

सं० 605 तारीख 17 फरवरी 1966—राष्ट्रपति निम्न-
लिखित को संशोधित वायुसेना अनुदेश 50/51 और 19/63 जो
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र सं० वा० से० मु०/23967/
43/पी० पी० एण्ड आर०/3239/डी० (ए-III) तारीख 25
मार्च, 1963 और वा० से० मु०/23949/445/पी० पी० एण्ड आर०
/9449/डी० (ए०-III) तारीख 13 सितम्बर 1963 के साथ पठनीय
है, के अन्तर्गत स्थायी कमीशन (परखाधीन) प्रदान करते हैं :—

भारतीय वायुसेना**इंक्विपमेंट ब्रांच**

(भूतपूर्व वायुसेना फ्लाइट कैंडेट पाइलट अफसर के पद पर)

(214035) सिगनलर III बलदेव राज शर्मा (9233)
और (206722) सार्जेंट गोपाल सिंह बवेजा (9236)—23
दिसम्बर 1964।

एकाउंटस ब्रांच

(भूतपूर्व फ्लाइट कैंडेट पाइलट अफसर के पद पर)

महानी प्रभाद दास गुप्त (9246)—23 दिसम्बर 1964।

सं० 606, तारीख 16 फरवरी 1966—राष्ट्रपति निम्नलिखित को वायुसेना अनुदेश 19/63 तथा भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र सं० वायुसेना मुं०/23949/150/पी० पी० एण्ड आर०/2586/डी० (ए०-III) दिनांक 20 मार्च 1962 को वायुसेना अनुदेश 4/एस०/50 के साथ पठनीय है, के अन्तर्गत थोड़े समय का सेवा कमीशन (परखाधीन) प्रदान करते हैं।—

भारतीय वायुसेना

टेक्निकल (सिगनल) ब्रांच

(भूतपूर्व वायुसेनिक फ्लाइट कॅडेट पाइलट अफसर के पद पर)

(205936) सार्जेंट मतीश कुमार भाटिया (8301); (29761) फ्लाइट सार्जेंट पतिनचरावेतिल सुकुमारन (8303); (27667) फ्लाइट सार्जेंट कुलदीप सिंह गिल (8307); (14538) मास्टर वारंट अफसर आशुतोष दत्त (8316); (202078) फ्लाइट सार्जेंट अनंतकृष्ण स्वामीनाथन (8325)—26 मार्च 1964।

टेक्निकल (इंजीनियरिंग) ब्रांच

(भूतपूर्व वायुसेनिक फ्लाइट कॅडेट पाइलट अफसर के पद पर)

(400088) कार्पोरल पुथेनुयेतिल जैकब लुईस (8310); (24478) वारंट अफसर मोहिनंदर सिंह (8321) और (24479) फ्लाइट सार्जेंट मोहिनंदर सिंह (8328)—26 मार्च 1964।

टेक्निकल (इलेक्ट्रिकल) ब्रांच

(भूतपूर्व वायुसेनिक फ्लाइट कॅडेट पाइलट अफसर के पद पर)

(204558) सार्जेंट कोदाककत अराकिकल बालकृष्णन (8304); (200776) सार्जेंट जगदीश बहादुर खरे (8312); (38785) सार्जेंट अजीत कुमार सिंह (8315); (201667) सार्जेंट भगवान रामचन्द्र देशपाण्डे (8317); (200794) सार्जेंट कीरत सिंह मच्चर (8322)—26 मार्च 1964।

सं० 607, तारीख 21 फरवरी 1966—राष्ट्रपति वायुसेना के निम्नलिखित अफसर को जिन्हें स्थायी कमीशन (परखाधीन) प्रदान किया गया था, पक्का करते हैं—

भारतीय वायुसेना

एजुकेशन ब्रांच

पाइलट अफसर वीरेन्द्र कुमार (7778)—19 अक्टूबर 1963।

सं० 608, तारीख 16 फरवरी 1966—राष्ट्रपति निम्नलिखित पाइलट अफसर को जिन्हें 4 अगस्त 1964 से स्थायी कमीशन (परखाधीन) प्रदान किया गया था, पक्का करते हैं। उन्हें उनके नाम के सामने दी गई तारीख से फ्लाइट अफसर के मूल रैंक में भी पदोन्नत किया जाता है।

भारतीय वायुसेना

जनरल इयूटीज (पाइलट) ब्रांच

आर० रमेश (8781)—4 अगस्त 1965।

सं० 609, तारीख 17 फरवरी 1966—राष्ट्रपति निम्नलिखित फ्लाइट लेफ्टिनेंटों की स्क्वाड्रन लीडर के स्थायी रैंक में पदोन्नत करते हैं—

भारतीय वायुसेना

जनरल इयूटीज (पाइलट) ब्रांच

एम० एल० चतुर्वेदी (4787), एस० मथरानी (4788), एस० डी० मोहन (4789), आई० एम० संघू (4790), आई० जी० शहाणी (4790), एम० एम० जतार, वीरचक्र

(4793), एम० एम० वारा (4794), इ० जी० सैलिस (4796), डी० के० घोष (4797), वी० सी० गुडविन (4798), एम० वी० काशिकर (4801), वी० पी० साधे (4802), पी० एस० मंघू (4803), एम० के० भट्टाचार्य (4804), वी० कीलर, वीरचक्र (4805), एम० एम० गौराया (4808), आई० एम० देग्डे (4812), एम० सुंज, वीरचक्र (4816), डी० एम० जसवाल (4817), टी० कीलर, वीरचक्र (4818), सी० के० शर्मा (4821), पी० के० दर्ना (4822), चरणजीत सिंह (4823), वी० जॉन्सन (4826), आर० के० सूरी (4828) एम० ठकर (4829), वी० के० सर्वना (4830), एस० एस० मल्होत्रा (4831), के० एन० जोहरी (4834), आई० जे० एस० पारमार (4835), डी० ए० औगिया (4836), एन० एल० नारायण राव (4837), वी० डी० देगवाल (4839)—6 नवम्बर 1965।

मेटियोरोलॉजिकल ब्रांच

एस० लक्ष्मीनारायणन (5565), आर० एस० छनवाल (5566)—17 नवम्बर 1965।

वी० डी० अय्यर (4389), ए० जी० गाब (4388)—22 नवम्बर 1965।

सं० 610, तारीख 14 फरवरी 1966—राष्ट्रपति निम्नलिखित पाइलट अफसरों को 27 दिसम्बर 1964 से अपना थोड़े समय का सेवा कमीशन त्याग देने की अनुमति देते हैं और उनको उसी तारीख से वायुसेना अनुदेश 4/एस०/50 के अधीन स्थायी कमीशन प्रदान करते हैं। वायुसेना अनुदेश 8/एस०/63 के अन्तर्गत जैसा कि उनके नामों के आगे लिखा गया है, यह कमीशन उन्हें पिछली तारीख से प्रदान किया गया है।

भारतीय वायुसेना

टेक्निकल (इंजीनियरिंग) ब्रांच

के० बालासुब्रमणियन (7609); पी० आर० गुप्त (7615); के० वी० कन्डास्वामी (7612); एन० वी० गोन्डल (7613); के० एस० ए० स्वरूप (7611); आर० एस० रेड्डी (7614); और आर० मोतारमण (7610)—वेतन तथा पदोन्नति की बरीयता 27 जून, 1962 से।

टेक्निकल (सिगनल) ब्रांच

एस० मधुकृष्णन (7643); के० एन० पराडकर (7639); आर० के० राजेन्द्रन (7633); ए० कुमार (7644); के० के० मेहता (7638); वी० के० कवकड़ (7631); वी० एम० वर्नस (7619); के० पी० संगीह (7636); के० कृष्णामूर्ती (7616); एम० घोष (7641); और पी० एन० कवरी (8627)—वेतन तथा पदोन्नति की बरीयता 27 जून, 1962 से।

टेक्निकल (आयमिन्ट) ब्रांच

पी० के० एम० श्रीधर (8623); इ० एम० रामकृष्णन (7648); जे० डी० शिन्डे (8624) और निरंजन सिंह (8625)—वेतन तथा पदोन्नति की बरीयता 27 जून, 1962 से।

सं० 611, तारीख 14 फरवरी 1966—राष्ट्रपति वायुसेना अनुदेश 4/एस०/50 के अधीन वायुसेना के निम्नलिखित अफसरों को 27 दिसम्बर 1964 से अपना थोड़े समय का सेवा कमीशन त्याग देने की अनुमति देते हैं और उसी तारीख से पाइलट अफसर के रैंक में स्थायी कमीशन प्रदान करते हैं और, उनके वेतन तथा पदोन्नति की बरीयता उनके थोड़े समय के सेवा कमीशन की तारीख से होगी।

भारतीय वायुसेना

टेक्निकल (सिगनल) ब्रांच

एम० के० पांडे (7624); एन० के० महाशुक्ली (7628); पी० एस० साधुर (7618); टी० मैयू (7621); एम० के० पुरी (7634); के० सी० व्यास (7629); आर० वी० जोग (7617); जी० डी० बसरा (7632) और एम० के० भट्टो (7630)।

सं० 612, तारीख 21 फरवरी 1966—राष्ट्रपति निम्न-लिखित पाइलट अफसर को 9 मई 1964 से थोड़े समय का सेवा कमीशन त्याग देने की अनुमति देते हैं और उर्सा तारीख से वायुसेना अनुदेश 4/एस०/50 के अधीन स्थायी कमीशन प्रदान करते हैं। यह जैसा कि उनके नाम के सामने लिखा हुआ है, वायुसेना अनुदेश 8/एस०/63 के अन्तर्गत यह पिछली तारीख से लागू होगा।

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 5th March 1966

No. 545, dated 15th Feb. 1966.—The President is pleased to appoint Shri A. L. Venkateswaran, perm. Grade I officer of the C.S.S., offg. in the Selection Grade of the Service as Deputy Secretary, Min. of Def. for the period from 7th Jan. 1966 to 4th Feb. 1966.

No. 546, dated 16th Feb. 1966.—The President is pleased to appoint Shri P. S. Parvathesam, a perm. Grade II officer of the C.S.S.S. cadre of the Ministry of Transport (Transport Wing), on transfer from the Ministry of Irrigation & Power, as Private Secretary to the Deputy Defence Minister for the period from 28th Jan. 1966 (AN) to 14th Feb. 1966 (FN). Thereafter his services have been placed at the disposal of the Ministry of Food, Agriculture, Community Development & Co-operation.

No. 547, dated 16th Feb. 1966.—The President is pleased to appoint Shri S. R. Krishnan, a perm. Grade II Stenographer of the C.S.S.S. cadre of the Min. of Def., to officiate in Grade I of the Service w.e.f. the 14th Feb. 1966 and until further orders.

C. L. DHINGRA, Under Secy.

OFFICE OF THE C.A.O.

No. 548, dated 19th Feb. 1966.—The President is pleased to appoint Shri I. K. Sehgal, perm. Supdt. as Officer Supervisor in an offg. capacity for the period 26th Oct. 1965 to 18th Dec. 1965, vice Shri J. N. Raina, perm. Supdt./offg. Officer Supervisor, on leave.

V. FERRAO, Asstt. C.A.O.

(DEPARTMENT OF DEFENCE PRODUCTION)

No. 549, dated 16th Feb. 1966.—The President is pleased to make the following appointment:—

Ref. No'n. No. 1615, dated 24th June 1965 published in the Gazette of India, dated 10th July 1965, Shri Babu Ram Kapur to continue to be tempy. Civilian Assistant Security Officer at the Chief Inspectorate of General Stores, Kanpur, up to 30th June 1966 or till the post is filled through Union Public Service Commission whichever is earlier.

K. C. BOSE, Under Secy.

No. 550, dated 16th Feb. 1966.—The President is pleased to make the following promotion:—

(Defence Science Service)

Shri G. V. Coelho, tempy. Senior Scientific Officer Grade II (Perm. Foreman), Chief Inspectorate of Armaments, Kirkee, to be tempy. Senior Scientific Officer Grade I in the same establishment, 1st Jan. 1966 (FN).

N. V. SWAMINATHAN, Under Secy.

No. 551, dated 16th Feb. 1966.—The President is pleased to make the following appointment:—

RESEARCH AND DEVELOPMENT ORGANISATION

Shri I. D. Gupta, perm. C.S.O. Grade II to be offg. C.S.O. Grade I until further order vice Shri A. S. Pujji transferred, 21st Jan. 1966.

On transfer from CAO's Office Shri M. P. Gaur, perm. Officer Supervisor to be offg. CSO Grade II until further orders vice Shri I. D. Gupta promoted, 3rd Feb. 1966.

V. FERRAO, Asstt. C.A.O.

भारतीय वायुसेना

टेक्निकल (सिगनल) ब्रांच

आर० एस० टिवाना (7831), वेतन तथा पदोन्नति की वरीयता—2 नवम्बर 1961 में।

सं० 613, तारीख 16 फरवरी 1966—निम्नलिखित अफसर ने अपने रैंक की 12 माम की वरीयता खो दी है और वह अपने वर्तमान रैंक में अग्रता इस प्रकार ग्रहण करेंगे मानो कि उनका नाम अप्रैल, 1965 की वायुसेना सूची में अमर नाथ ओबेराय (5385) और अमर पाल सिंह अरोरा (5283) के बीच में आता हो।

भारतीय वायुसेना

जनरल इयूटोज (पाइलट) ब्रांच

फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट सदानन्द त्रासी (5080)—27 अगस्त 1965।

डी० एस० अय्यर, अवर सचिव

DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT ORGANISATION

No. 552, dated 16th Feb. 1966.—The President is pleased to make the following appointment:—

Defence Science Service

Shri Narain Mansharamani, to be tempy. Sr. Scientific Officer Grade II, Instruments Research and Development Estt., Dehra Dun, on probn. for a period of two years, 14th Dec. 1966 (FN).

No. 553, dated 17th Feb. 1966.—The President is pleased to make the following promotions:—

Defence Science Service

Shri B. S. Murthy, tempy. Sr. Scientific Officer Grade II, Solid State Physics Laboratory, Delhi, to be tempy. Senior Scientific Officer Grade I, in the same Establishment, 16th Nov. 1965 (F.N.).

Shri K. C. Chhabra, tempy. Sr. Scientific Officer Grade II, Solid State Physics Laboratory, Delhi, to be tempy. Senior Scientific Officer Grade I, in the same Establishment, 16th Nov. 1965 (F.N.).

Dr. B. L. Sharma, tempy. Senior Scientific Officer Grade II, Solid State Physics Laboratory, Delhi, to be tempy. Senior Scientific Officer Grade I, in the same Establishment, 16th Nov. 1965 (F.N.).

N. V. SWAMINATHAN, Under Secy.

INDIAN ORDNANCE FACTORIES SERVICE

No. 554, dated 7th Feb. 1966.—The President is pleased to appoint the undermentioned Officers as Offg. D.A.D.G.O.F., until further orders, with effect from the dates indicated against each:—

Shri B. K. Ghosh, subst. and perm. Asstt. Manager/T.S.O.—2nd Mar. 1965.

Shri Sunil Chandra Bisi, quasi perm. Supdt. tempy. T.S.O.—8th Nov. 1965.

Shri K. P. Das Gupta, subst. and perm. O.S.—9th Nov. 1965.

V. I. RAJAGOPAL, Under Secy.

No. 555, dated 22nd Feb. 1966.—The President is pleased to appoint Shri L. C. Kotwal, offg. Manager, as offg. Deputy General Manager, until further orders, 18th Nov. 1965.

No. 556, dated 22nd Feb. 1966.—The President is pleased to appoint Shri A. N. Sinha, offg. Dy. Manager, as offg. Manager, until further orders, 18th Nov. 1965.

No. 557, dated 22nd Feb. 1966.—Shri Lahori Mal, offg. Dy. Manager (perm. Store-holder), has retired from service w.e.f. 1st Jan. 1966.

No. 558, dated 22nd Feb. 1966.—Dr. B. M. Roy Choudhury, tempy. Asstt. Surgeon Grade I (subs. & perm. Asstt. Surgeon Grade II), posted at R.F.I. superannuated on 11th Dec. 1965 (A.N.). He was granted refused leave for 30 days w.e.f. 12th Dec. 1965.

V. I. RAJAGOPAL, Under Secy.

NATIONAL CADET CORPS

No. 559, dated 11th Feb. 1966.—The President is pleased to grant commission to the following:—

Girls Division (Senior Wing)

Uttar Pradesh

To be 2/Lt.

Miss INDIRA RATNAKAR, (NCC/GD/6597), 30th Mar. 1965.

Miss SARLESH SHARMA (NCC/GD/6598), 4th Aug. 1965.

No. 560, dated 19th Feb. 1966.—The President is pleased to discharge the following officer from the National Cadet Corps w.e.f. 20th Jan. 1966. The period shown in brackets against their names shall not be counted for the purposes of seniority or promotion or any other benefits in the National Cadet Corps :—

Senior Division (Army Wing)

Maharashtra

Lt. G. R. Tatwawadi (NCC/43), (12th Sep. 1961 to 19th Jan. 1966), 2/Lt. R. N. Patil (NCC/339), (20th June 1964 to 19th Jan. 1966).

No. 561, dated 19th Feb. 1966.—The President is pleased to discharge the following officers from the National Cadet Corps w.e.f. 25th Jan. 1966. The period shown in brackets against their names shall not be counted for the purposes of seniority or promotion or any other benefits in the National Cadet Corps :—

Senior Division (Army Wing)

Madhya Pradesh

2/Lt. A. P. Verma (NCC/2113), (1st Apr. 1965 to 24th Jan. 1966), Lt. K. G. Asthana (NCC/1962), (8th Nov. 1965 to 24th Jan. 1966).

Kerala

2/Lt. K. C. John (NCC/7741), (28th July 1964 to 24th Jan. 1966), Lt. K. J. Joseph (NCC/7641), (1st Jan. 1965 to 24th Jan. 1966), 2/Lt. V. K. Raja (NCC/7663), (6th Oct. 1962 to 24th Jan. 1966).

No. 562, dated 19th Feb. 1966.—The President is pleased to accept the resignation of the following officer from the National Cadet Corps w.e.f. 20th Jan. 1966. The period shown in brackets against his name shall not be counted for the purposes of seniority, promotion or any other benefits in the National Cadet Corps :—

Senior Division (Army Wing)

Maharashtra

2/Lt. L. N. Mulbagal (NCC/519), (1st May 1965 to 19th Jan. 1966).

MAHTAB SINGH, Under Secy.

No. 563, dated 19th Feb. 1966.—The undermentioned is granted the honry. rank of Col. in the National Cadet Corps and is appointed as hony. Col. Commandant N.C.C. in the Visva-Bharati, Santiniketan, for the period of his appointment as Vice Chancellor :—

Dr. Kalidas Bhattacharya, M.A., Ph.D., Vice Chancellor, Visva-Bharati, SANTINIKETAN (West Bengal), 1st Jan. 1966.

S. P. SRINIVASAN, Dy. Secy.

No. 564, dated 19th Feb. 1966.—Corrigendum.—In M. of D. Notn. No. 1080, dated 27th Apr. 1963, published in the Gazette of India dated 11th May 1963, under heading 'Senior Division (Army Wing)' sub-heading 'To be 2/Lts.' below 'Maharashtra' for Anantha Krishna IYER (NCC/7852), 22nd Mar. 1962 read Anantha Krishna IYER (NCC/7852), 22nd Mar. 1963.

MAHTAB SINGH, Under Secy.

(ARMY BRANCH)

No. 565, dated 19th Feb. 1966.—The President is pleased to make the following appointments :—

COMDS. & STAFF

To be Comdr., an Indep. Arty. Bde.

Lt. Col. (A/Brig.) S. S. Padda (IC 558), Artillery, 19th Oct. 1965.

To be Comdr. a Mtn. Bde.

Col. (A/Brig.) M. S. Patankar (IC 1087), 21st Dec. 1965.

To be Comdt., Armd. Corps Centre & School

Col. (A/Brig.) Karam Singh (IC 1274), Vr. C., 26th Dec. 1965.

To be C.S.O., H.Q. Eastern Command

Brig. E. G. Pettengell (IC 795), Signals, 8th Jan. 1966.

To be Brig. IC. Adm., H.Q. Central Command

Brig. D. S. Kalha (IC 615), ASC., 9th Jan. 1966.

To be Comdr., a Lor. Inf. Bde.

Brig. Harmandar Singh (IC 419), 10th Jan. 1966.

To be Comdr., a Mtn. Bde.

Lt. Col. (A/Brig.) Ram Singh (IC 3198), Madras, 10th Jan. 1966.

Army Headquarters

To be Brig. P.P.O., M.G.O. Branch

Col. (A/Brig.) M. C. Dadwal (IC 2578), A.O.C., 11th Jan. 1966.

To be Dir. of Works (Air Force), E in C's Branch

Brig. P. D. Joshi (IC 435), Engineers, 14th Jan. 1966.

V. SUBRAHMANYAN, Dy. Secy.

A.G.'s Br.

No. 566, dated 22nd Feb. 1966.—The President is pleased to appoint Shri S. C. Gupta, perm. Supdt., as Officer Supervisor, in an offg. capacity from 22nd Dec. 1965 to 29th Jan. 1966 vice Shri S. H. Das, O.S., granted leave.

No. 567, dated 22nd Feb. 1966.—The President is pleased to appoint Shri P. S. Nambiar, perm. Supdt., as Officer Supervisor, in an offg. capacity from 27th Dec. 1965 to 1st Feb. 1966 vice Shri O. P. Jaini, O.S., granted leave.

No. 568, dated 22nd Feb. 1966.—The President is pleased to appoint Shri R. P. Bhatnagar, perm. Supdt., as Officer Supervisor, in an offg. capacity from 30th Dec. 1965 to 11th Feb. 1966 vice Shri K. P. Khanna, perm. O.S., granted leave.

No. 569, dated 22nd Feb. 1966.—The President is pleased to appoint Shri Chava Sankara Rao, tempy. Statistical Investigator, Army Statistical Organisation, as Statistical Officer in a tempy. capacity w.e.f. 1st Feb. 1966 until further orders vice Shri H. C. Mithal, offg. Statistical Officer, reverted.

No. 570, dated 22nd Feb. 1966.—The President is pleased to appoint Shri Gollapalli Samuel, tempy. Statistical Investigator, Army Statistical Organisation, as Statistical Officer in a tempy. capacity w.e.f. 7th Feb. 1966 until further orders.

No. 571, dated 22nd Feb. 1966.—The President is pleased to make the following appointments :—

Shri O. P. Sood, perm. O.S., as C.S.O. Grade II in an offg. capacity from 6th Sep. 1965 to 25th Nov. 1965 vice Major H. E. Michael.

Shri M. L. Sahani, perm. Supdt., as O.S., in an offg. capacity from 10th Sep. 1965 to 25th Nov. 1965 vice Shri O. P. Sood, O.S., promoted.

M. D. DALAKOTI, Asstt. C.A.O.

No. 572, dated 17th Feb. 1966.—The President is pleased to make the following appointments :—

Army Headquarters

MGO Branch

Shri G. R. Chetal, perm. Supdt. to be offg. O.S., from 17th June 1965 to 20th July 1965 vice Shri O. P. Saxena on leave.

Shri O. P. Khanna, perm. O.S., to be offg. C.S.O., Grade II from 8th July 1965 to 4th Sep. 1965 vice Major N. D. Bhasin proceeded on course.

Shri R. N. Mehrotra, perm. Supdt. to be offg. O.S., from 8th July 1965 to 4th Sep. 1965 vice Shri O. P. Khanna promoted as C.S.O., Grade II.

Shri O. P. Gupta, perm. O.S. to be offg. C.S.O., Grade II from 5th July 1965 to 18th Sep. 1965 vice Major Daljit Singh proceeded on course.

Shri R. L. Tandon, perm. Supdt., to be offg. O.S., from 5th July 1965 to 4th Aug. 1965 vice Shri O. P. Gupta promoted as C.S.O., Grade II.

Shri G. R. Chetal, perm. Supdt., to be offg. O.S., from 5th Aug. 1965 to 18th Sep. 1965 vice Shri O. P. Gupta promoted as C.S.O., Grade II.

Shri O. P. Saxena, perm. Supdt./offg. O.S., to be offg. C.S.O., Grade II from 30th Aug. 1965 to 30th Sep. 1965 vice Major V. K. Pillai proceeded on course.

Shri Rajindar Parkash, perm. Supdt. to be offg. O.S., from 30th Aug. 1965 to 30th Sep. 1965 vice Shri O. P. Saxena promoted as C.S.O., Grade II.

Shri O. P. Khanna, perm. O.S., to be offg. C.S.O., Grade II from 1st Oct. 1965 to 1st Nov. 1965 vice Major V. K. Pillai proceeded on course.

Shri G. R. Chetal, perm. Supdt. to be offg. O.S. from 1st Oct. 1965 to 1st Nov. 1965 vice Shri O. P. Khanna promoted as C.S.O., Grade II.

Shri O. P. Khanna, perm. O.S. to be offg. C.S.O. Grade II from 2nd Nov. 1965 to 4th Dec. 1965 vice Shri S. L. Jain on leave

Shri R. L. Tandon, perm. Supdt. to be offg. O.S. from 2nd Nov. 1965 to 4th Dec. 1965 vice Shri O. P. Khanna promoted as C.S.O. Grade II.

Shri Banwari Lal, perm. C.S.O. Grade II to be offg. C.S.O. Grade I from 8th Nov. 1965 to 8th Dec. 1965 vice Shri N. L. Batra on leave.

Shri O. P. Gupta, perm. O.S. to be offg. C.S.O. Grade II from 8th Nov. 1965 to 8th Dec. 1965 vice Shri Banwari Lal promoted as C.S.O. Grade I.

Shri G. R. Chetal, perm. Supdt. to be offg. O.S. from 8th Nov. 1965 to 8th Dec. 1965 vice Shri O. P. Gupta promoted as C.S.O. Grade II.

Shri N. K. Sen Gupta, perm. Supdt./offg. O. S. to be offg. C.S.O. Grade II from 6th Oct. 1965 to 5th Feb. 1966 vice Major B. M. Khanna, DADEME, proceeded on course.

Shri Chander Bhan, perm. Supdt. to be offg. O.S. from 6th Oct. 1965 to 5th Feb. 1966 vice Shri N. K. Sen Gupta promoted as C.S.O. Grade II.

Shri Manjit Singh, perm. Supdt. to be offg. O.S. from 6th Oct. 1965 to 5th Feb. 1966 vice Capt. Raj Kumar, posted out.

V. FERRAO, Asstt. C.A.O.

No. 573, dated 19th Feb. 1966.—The President is pleased to make the following appointments:—

*Army Headquarters
E-in-C's Branch*

Shri R. C. Sud, perm. Supdt., to be Officer Supervisor in an offg. capacity from 16th Aug. 1965 to 15th Sep. 1965, vice Shri S. S. Mehta, on leave.

Shri J. C. Saini, perm. Supdt., to be Officer Supervisor in an offg. capacity from 27th Oct. 1965 to 24th Dec. 1965 vice Shri K. B. Lal, on leave.

Shri A. K. Dass, perm. Supdt., to be Officer Supervisor in an offg. capacity from 2nd Nov. 1965 to 2nd Dec. 1965 vice Shri H. K. Khanna, on leave.

Shri Dharam Bir, perm. Supdt., to be Officer Supervisor in an offg. capacity from 1st Nov. 1965 to 3rd Dec. 1965 vice Shri S. A. R. Jessudoss, on leave.

Shri Hazara Singh, perm. Asstt./offg. Supdt., to be Officer Supervisor in an offg. capacity from 23rd Nov. 1965 to 24th Dec. 1965 vice Shri Khazan Singh, on leave.

M. D. DALAKOTI, Asstt. C.A.O.

DTE General of Inspection

No. 574, dated 19th Feb. 1966.—The President is pleased to make the following appointments:—

Shri J. P. Goel, perm. Officer Supervisor to be C.S.O. Grade II, in an offg. capacity, from 10th Jan. 1966 to 11th Feb. 1966 vice Shri Shyam Sunder, perm. Officer Supervisor/offg. C.S.O. Grade II, on leave.

Shri S. Parasuram, perm. Supdt. to be Officer Supervisor in an offg. capacity, from 10th Jan. 1966 to 11th Feb. 1966 vice Shri J. P. Goel, perm. Officer Supervisor, promoted.

No. 575, dated 14th Feb. 1966.—The President is pleased to make the following appointments:—

*Army Headquarters
M. S. Branch*

Shri J. P. Bhatnagar, perm. O.S. to be offg. C.S.O. II from 24th Sep. 1965 to 22nd Jan. 1966 vice Major C. Venugopal, DAMS promoted.

Shri R. C. Upadhyaya, perm. Supdt. to be offg. O.S. from 24th Sep. 1965 to 22nd Jan. 1966 vice Shri J. P. Bhatnagar promoted.

K. S. SUBRAMANIAN, Asstt. C.A.O.

No. 576, dated 15th Feb. 1966.—The President is pleased to make the following appointments:—

*REGULAR ARMY
Emergency Commission*

To be 2/Lts. under AI 9/S/62

GUPTESHWAR RAI (EC 51551) Infy., Prakash Abraham JOSEPH (EC 51552) Armoured Corps., Komath GOVINDAN (EC 51553) Artillery, Rajinder Parkash MEDIRATTA (EC 51554) Engineers, Madan Lal VOHRA (EC 51555) and PARMODH SINGH (EC 51556) Infy., Raj Pal NANDA (EC 51557) E.M.E., BASHAMBAR DASS (EC 51558), Kundal BHAUMIK (EC 51559) and Sham Lal DOGRA (EC 51560) Infy., Bhim Sain MEHTA (EC 51561) A.O.C., Muthia Raja BHIMAN (EC 51562) E.M.E., Surlinder Singh CHHATWAL (EC 51563) Armoured Corps., Baby THOMAS (EC 51564) Artillery, Jawahir Lal MISKREN (EC 51565) A.S.C., Ranjit Singh KAHLON (EC 51566) Infy., GHAN SHAYAM SINGH (EC 51568) A.O.C., Zile Singh YADAVA (EC 51569) and Harsaran Singh CHADHA (EC 51570) Infy., Sudarshan Kumar VOHRA (EC 51571) A.E.C., LASHKAR SINGH (EC 51572) A.S.C., SATYAPAL SINGH

(EC 51573) E.M.E., Sayajirao GAWADE (EC 51574) and JAIDEO SINGH (EC 51575) A.O.C., KARWANT SINGH (EC 51576) Infy., HARBANS SINGH (EC 51577) A.S.C., Ujagar Singh JHAJ (EC 51578) and DARSHAN SINGH (EC 51579) A.O.C., Suraj Pal Singh RANA (EC 51580) Signals, Azeketh Kodoli GOPALAN NAIR (EC 51581) Artillery, PAYARA SINGH (EC 51582) A.S.C., MUKUNDI LAL (EC 51583) Infy., SARBJIT SINGH (EC 51584) and SARJIT SINGH (EC 51585) A.S.C., Sarbjit Singh SIDHU (EC 51586) Engineers, Ronur Sri Hari Rao NAIDU (EC 51587) Artillery, KRISHEN LAL (EC 51588) A.O.C., Kamesh Chandra NAITHANI (EC 51590) Engineers, BIR SINGH (EC 51591) and Inder Jit SHARMA (EC 51592) Infy., TARSEM SINGH (EC 51593) Engineers, Laxman Singh RAWAT (EC 51594) A.S.C., GURDIAL SINGH (EC 51595) Infy., HARDEV SINGH (EC 51596) and Manmohan Singh BAKHSHI (EC 51597) A.S.C., Sartaj Singh BHINDER (EC 51598) Artillery, Ishwar Dass DOGRA (EC 51599) and Manohar Lal DEWAN (EC 51600) Infy., Manmohan Singh SEKHON (EC 51601) E.M.E., Ram Chandra HATWAL (EC 51602) A.S.C., Rajinder Nath ABROL (EC 51604) Engineers, Kamalakant Narayan KULKARNI (EC 51605) Artillery, Gurdip Singh SEKHON (EC 51606) Engineers, Mohinder Singh CHATWAAL (EC 51607) Artillery, Rajinder Singh RANDHAWA (EC 51608) and Padmakar NAIK (EC 51609) Infy., BEGRAJ SINGH (EC 51610) A.S.C., Virendra Singh KUSHWAH (EC 51611) Infy., Avtar Singh THABAL (EC 51612) A.O.C., Sankarapillai Chellappan PILLAI (EC 51613) A.S.C., Krishnaswami GOPAL (EC 51614) Artillery, Umed Singh RAWAT (EC 51615) and Ramesh KHANNA (EC 51616) Infy., Jagdeo Singh YADAV (EC 51617) and Ramendra Mohan DAS (EC 51618) Artillery, Balram Singh KHANKA (EC 51619) and Ishwar Singh THAPA (EC 51620) Infy., Om Prakash YADAV (EC 51621) and BAKHSHISH SINGH (EC 51622) A.S.C., Murty Durendra NAIDU (EC 51623) Artillery, Periya Swamy Pillai AMSU (EC 51624) Infy., Kulwant Singh VOHRA (EC 51625) Signals, Pramod Kumar SHARMA (EC 51626) Infy., BHAGWANT SINGH (EC 51627) Artillery, Pramod Pandurang BHAT (EC 51628) Signals, Harkishan Singh BRAR (EC 51629) Infy., Madhav Bhairav HATVALNE (EC 51631) and Umesh Ganpat KUMTA (EC 51632) Infy., Pars Ram BAKHSHI (EC 51633) A.S.C., Chandan Singh POKHARIA (EC 51634) A.E.C., Somasundaram Pillai RAMAN (EC 51635) E.M.E., Surjan Singh SIDHU (EC 51636) A.O.C., Joginder Singh YADAVA (EC 51637) Artillery, Gurmel Singh GREWAL (EC 51638) A.S.C., Vasant HATKAR (EC 51639) and Murali Dhar DEYONDI (EC 51640) Infy., Charanjit Paul Singh DEWAN (EC 51641) Engineers, Surendra Singh RAWAT (EC 51642), Hans Raj SHARMA (EC 51643), RAGHUVIR SINGH (EC 51644) and Ram Singh DIKHIT (EC 51645) Infy., DALJIT SINGH (EC 51646) Engineers, GURDARSHAN SINGH (EC 51647) A.S.C., Shamkant Dattaram KAMAT (EC 51648) E.M.E., Budalur Muthukangaya ARUMUGAM (EC 51649) A.O.C., Surjit Singh KANDHARI (EC 51650) A.S.C., Ashok Jagannath DHOBLEY (EC 51651) A.E.C., Badri Nath SAH (EC 51652) Infy., RAJ KISHORE SINGH (EC 51653) A.S.C., Ujjal Paul Singh AHLUWALIA (EC 51654) Infy., Samuel Arnold Abraham RAJASEKHARAN (EC 51655) Artillery, RAJINDER PARSHAD (EC 51656) Signals, Apar Singh GHUMAN (EC 51657) A.O.C., MOHAN LAL (EC 51658) Artillery GURJIT SINGH (EC 51659) and GURJOT SINGH (EC 51660) A.S.C., Balwant Singh SARA (EC 51661) and Abhimanyu Kumar TEWARI (EC 51662) A.O.C., Gulshan Kumar OBHRAI (EC 51663), Bhaahakarla SUBHASH (EC 51664) and Vattukulathil Chacko KURIAN (EC 51665) Infy., Gopi Mohan BHATTACHARYYA (EC 51666) Artillery, Dayanand CHAWLA (EC 51667) E.M.E., Satish Kumar TANEJA (EC 51669) and Hardial Singh SANDHU (EC 51670) Engineers, Ishwar Neelakanthesh MALIGI (EC 51671) Artillery, Opinder Jeet KHOSLA (EC 51672) E.M.E., KISHAN DEV (EC 51673) A.S.C., Krishan Gopal CHOPRA (EC 51674) Artillery, Dinkar Vishnu NARURKAR (EC 51675) Signals, Gopinath Bhlwaji ARIRE (EC 51676) Artillery, Shyamveer Singh RATHORE (EC 51677) Infy., Vasant Rao Tatyasheeb PATIL (EC 51678) Armoured Corps., PRAN NATH (EC 51679) Artillery, Raj Kumar SAWHNEY (EC 51680) E.M.E., Hari Singh KADIAN (EC 51681) A.O.C., Gurjiwan Singh SIDHU (EC 51682) and Sarit

Kumar GANGOPADHYAY (EC 51683) A.S.C., SUCHA SINGH (EC 51684) Infy., Gokal Inder DEV (EC 51685) A.O.C., Suresh Chandra DEWAN (EC 51686) Signals, Sudarshan Singh JASWAL (EC 51687) and Sudarshan Lal DHEER (EC 51688) Infy., Indra Jit AHLUWALIA (EC 51689) Artillery, RAGHBAR SINGH (EC 51690) A.S.C., RAM DEV (EC 51691) and Krishan Lal SHARMA (EC 51692) Engineers, Raghvendra OJHA (EC 51693) Artillery, Harish Chander BHARDWAJ (EC 51694) Infy., Raghavan Nair GOPINATHAN NAIR (EC 51695) Artillery, Ravinder Kumar DOGRA (EC 51696) and Vijai Prakash SHUKLA (EC 51697) Infy., Surendra Pal Singh MALIK (EC 51698) A.S.C., RAJINDRA SINGH (EC 51699) Artillery, Mohammad Shakeel FAROOQI (EC 51700) Signals, Narayanswamy VENUGOPAL (EC 51701), CHAMAN SAMUEL (EC 51702) and Soundararajan KESAVAN (EC 51703) Infy., MADAN LAL (EC 51704), Thomas Puthucherril JOSEPH (EC 51705) and Parmendra Kumar MEHRA (EC 51706) A.S.C., MILKHA SINGH (EC 51707) Infy., Satya Parkash Singh TANWAR (EC 51708) E.M.E., Ganga Dhar MEHTA (EC 51709) A.O.C., Bijoy BARTHAKUR (EC 51710) Infy., Kavinder Nath RAJPUT (EC 51712) A.S.C., KARNAIL SINGH (EC 51713) Infy., Rajinder Lal BHARGAVA (EC 51714) and Ramesh Kishindas CHABRIA (EC 51715) Artillery, Nemmara Ramachandran SANGAMESWARAN (EC 51716) Engineers, Amrik Singh ANAND (EC 51717) A.S.C., Krishan Chand MEHRA (EC 51718) Infy., Bidyut Kumar CHAKRABARTI (EC 51719) Artillery, Mathalamuthu CHINNAPPAN (EC 51720) A.O.C., Raj Kumar SHARMA (EC 51721) Artillery, ROOP RAJ (EC 51722) A.S.C., RANJIT SINGH (EC 51723) Artillery, Prakash Krishna PANDEY (EC 51724) Infy., Munish Chander SIBBAL (EC 51725) Signals, Daljeet Singh CHEEMA (EC 51726) E.M.E., SULAKHAN SINGH (EC 51727) Engineers, Satish Chander SHARMA (EC 51729) Artillery, Milap Chand PARMAR (EC 51730) Infy., Manjeet Singh HUNDHAL (EC 51731) A.O.C., Mohinder Singh CHHIKARA (EC 51732) Infy., TIRLOK SINGH (EC 51734) A.S.C., SURJIT SINGH (EC 51735) Artillery, BHAGWAN SINGH (EC 51736) A.S.C., Tharammal SREEDHARAN (EC 51737) Artillery, Govind Singh SAJWAN (EC 51738) A.S.C., SULA-KHAN SINGH (EC 51739) Artillery, Manmohan Singh KHURANA (EC 51740) A.S.C., MADHAN GOPAL (EC 51742) and Profulla Chander KAUL (EC 51743) Artillery, MANMOHAN SINGH (EC 51744) Engineers, Dayal Singh RAWAT (EC 51745) and SHIV CHANDRA (EC 51746) Infy., Rajinder Singh MARYA (EC 51747) E.M.E., Asit Ranjan BHATTACHARJEE (EC 51748) Artillery, Dershen Daval SWAMI (EC 51749) A.S.C., Balbir Singh AAST (EC 51751) E.M.E., Madhvanath KRISHNAMURTHY (EC 51752) A.S.C., Krishan Dutta PATHAK (EC 51753) and Devki Nandan TALWAR (EC 51754) Infy., Surinder Lal MALIK (EC 51755) A.O.C., Ashok Kumar CHHIBBAR (EC 51756), Virindur Kumar MALHOTRA (EC 51757), JOGINDER SINGH (EC 51758), Ganil John David BHASKER (EC 51759) and Keshavnath PRABHU (EC 51760) Artillery, Sudhakar Vasant SATHE (EC 51761) E.M.E., Vaidyan Kumaraswamy SREEDHAR (EC 51762) and MULK SINGH (EC 51763) Infy., Vakkalery Chandra Rao Ram Dev KATKAR (EC 51764) E.M.E., DALIP SINGH (EC 51765) Infy., PARTAP SINGH (EC 51766) Signals, DIWAN CHAND (EC 51767) Infy., Jaspal Singh GAHUNIA (EC 51768) Engineers, Thaker Singh BAJWA (EC 51769) and Mohinder Singh RANDHAWA (EC 51770) Infy., Ramesh Kumar SEHGAL (EC 51771) Signals, Yogendra Pal AHLUWALIA (EC 51772) and MOHINDER PARTAP SINGH (EC 51773) Infy., Ranvir Singh SIROHI (EC 51774) A.S.C., Inder Jit Singh BAJWA (EC 51775) A.O.C., Govindarajulu VENKATARAJU (EC 51776) Signals, Kamma Pedda OBANNA (EC 51777) A.S.C., Deb Kumar NUNDY (EC 51778) and Ravikant Ramchandra JADHAV (EC 51779) Infy., Valappil BALACHANDRAN (EC 51780) Signals, JAGDISH RAI (EC 51781) A.O.C., KASHMIRA SINGH (EC 51782) A.S.C., Gursaharan Pal Singh BHANDARI (EC 51783) E.M.E., Daya Ram YADAVA (EC 51784) Artillery, Baljinder Singh CHHABRA (EC 51785) Infy., Sushil Kumar BAGGA (EC 51786) Artillery, Rattan Lal SETHI (EC 51788) Infy., Bharat Bhushan DHODY (EC 51789) Engineers, GOLIK NATH (EC 51790) Infy., Jag Mohan Lal SABHARWAL (EC 51791) A.O.C., KOMAL CHARAN (EC 51792) Artillery, Des Raj DOOMRA (EC 51793) A.E.C.,

Yogesh Chander SHARMA (EC 51794) Artillery, VISHWA RAJ SINGH (EC 51795) A.O.C., Manmohan Singh JAGIRDAR (EC 51796) Engineers, Ramesh Chander DATTA (EC 51797) Artillery, N. Hissskin Roy HYNNEWITA (EC 51798) Signals, Anand Purushottam SATHE (EC 51799) Artillery, RAJESHWAR SINGH (EC 51800) A.S.C., Inder Prakash KHARBANDA (EC 51801) and Anil Vishnupant TALWAIKAR (EC 51802) Infy., Nand Gopal DATTA (EC 51803) Armoured Corps., JASWANT SINGH (EC 51804) Infy., ANEES AHMAD (EC 51805) Signals, Maire Venkataramena NAYAK (EC 51807) Artillery, Hem Chand PANDE (EC 51808), Dhirendra SUBBA (EC 51809) and CHANDRA PAL SINGH (EC 51810) Infy., Ramkishan Singh SAINI (EC 51811) A.S.C., Surinder Mohan BHAGAT (EC 51812) Artillery, Bipin Chandra JOSHI (EC 51813) Infy., Chandra Kant MALIK (EC 51814) and Tulsi Das JATWANI (EC 51815) A.S.C., Shri Krishan DATTA (EC 51816) A.O.C., AWTAR SINGH (EC 51817) and RANVIR SINGH (EC 51818) Infy., Vemuri RAMA KRISHNA PRASAD (EC 51819) Engineers, Baljit Singh AHLUWALIA (EC 51820) Infy., JOGINDAR JIT SINGH (EC 51821), Rajinder Kumar WADHAWAN (EC 51822) and Jagjit Singh BAGRI (EC 51823) Artillery, Ashok Kumar KATOCH (EC 51824) A.O.C., Sisir Kumar SENGUPTA (EC 51825) A.E.C., Udai Singh RAI (EC 51827), BHARAT BHUSHAN (EC 51828) and Dhan Raj JAIN (EC 51829) Infy., Krishan Gopal BEHL (EC 51830) Engineers, Bhagwati Charan CHHIBBAR (EC 51831) Artillery, Prakash Narain MATHUR (EC 51832) A.E.C., Satish Kumar SINGHA (EC 51833) Infy., Maha Singh YADAVA (EC 51835) A.O.C., Chandra Prakash THAREJA (EC 51836) E.M.E., Harcharan Singh DHATT (EC 51837) Artillery, Daljit Singh BHATTHAL (EC 51838) Infy., Madan Mohan SHARMA (EC 51839) A.O.C., Sarana Singh RATHORE (EC 51840) and Rattan Chand KASAB (EC 51841) Infy., Satpal KRISHAN TARA (EC 51842) Engineers, Baldev Raj NARULA (EC 51843) A.O.C., Bhupal Chandra LAHIRI (EC 51844) Engineers, Parminder Singh CHANDIOK (EC 51845) E.M.E., Yash Paul MARWAHA (EC 51846) Infy., Om Prakash BHATIA (EC 51847) Signals, Murlidhar Jethmal MANTRI (EC 51849) A.S.C., Ajit Singh MAHAL (EC 51850) and DIWAN SINGH (EC 51851) Infy., PRITPAL SINGH (EC 51852) A.S.C., Tirath Singh GROVER (EC 51853) A.O.C., Dhanpat Rai YADAVA (EC 51854) Artillery, Machamada Mandappa APPAIAH (EC 51855) Infy., Diwakar Rajaram MANJREKAR (EC 51856) E.M.E., Rampal Singh VERMA (EC 51857) Engineers, Kewal Krishan SHARMA (EC 51858) Infy., Krishnamurti RAMARAU (EC 51859) A.O.C., Bertie Eric THOMAS (EC 51860) and Jagat Jit Singh MALHAN (EC 51861) Infy., Robindra Nath BORDOLOI (EC 51862) E.M.E., Karadi CHANNAPPA (EC 51863) A.S.C., HARBANS PAUL SINGH (EC 51864) A.E.C., VIJAI SINGH (EC 51865) and Gopal Chandra CHOWDHRY (EC 51866) Infy., Banarsi Lal BABBAR (EC 51867) A.O.C., Rajiv WHORRA (EC 51868) Infy., Surjit Singh RAIT (EC 51869) A.S.C., Austin Noel FERRIS (EC 51870) and Ramkrishna Narhar GADGIL (EC 51871) Infy., Shiv Dev Singh GANSHI (EC 51872) Signals, Archibald Nawal Kishore KUTUR (EC 51873), Krishan Chandra MEHROTRA (EC 51874) and Samander Singh RANA (EC 51875) Infy., Madhukar Haribhau PATIL (EC 51876) A.S.C., Suba Singh AULAKH (EC 51877) Infy., Kuldeep Singh MANN (EC 51878) Engineers, SUGAN SINGH (EC 51879) A.S.C., Yoginder Chand KHANNA (EC 51880) Infy., Narasimhan KANNAN (EC 51881) E.M.E., Naresh Chander SEHGAL (EC 51882) Engineers, Ittirankandath RAMACHANDRAN (EC 51883) A.O.C., MEHAR SINGH (EC 51884) Infy., Manoharsingh Dayalsingh ADVANI (EC 51885) Engineers, Shanti Parkash GOEL (EC 51886) Artillery, BRAHMCHARI PRASAD (EC 51887) A.S.C., Purshotam Das GUPTA (EC 51888) Engineers, Dhiresch Chandra DUTTA (EC 51890) Signals, Krishan SUBRAMANIAM (EC 51891) Infy., Durga Prasad SHARMA (EC 51892) Signals, Mrinal Kanti CHATTERJEA (EC 51893) and Vijai Singh GHUMAN (EC 51894) Infy., Ramdas Dattatraya GANGOLLI (EC 51895) A.S.C., Jagdish Kumar DUGGAL (EC 51896) E.M.E., Satya Parkash KOHLI (EC 51897) A.O.C., Iqbal Singh SANDHU (EC 51898) Artillery, Sat Pal KEWAL (EC 51899) A.S.C., Ram Niranjan Prasad Singh AWANINDRA (EC 51900) and Ravel Singh SIDHU (EC 51901) Infy., TIRATH SINGH (EC 51902) A.O.C., Vattoni KRISHNA DASS (EC 51903)

A.S.C., Vishnu GOVINDRAO SHINGORE (EC 51904) Artillery, DHARAM RAJ SINGH (EC 51905) Signals, Bishan Singh JAMWAL (EC 51906) and Mohinder Singh ARYA (EC 51907) Infy., Hara Gobinda CHOUDHURI (EC 51908) A.S.C., Kuruvaveettil UTHAMAN (EC 51909) Infy., SATNAM SINGH (EC 51910) Artillery, Kishan Lal SHARMA (EC 51911) and Krishan Ramachandravilas GOPI-NATHAN NAIR (EC 51912) Infy., Rustom Kalkhushru BHARUCHA (EC 51913) Signals, GURCHARAN SINGH (EC 51914) E.M.E., ABAL SINGH (EC 51915) A.S.C., Joseph Peter FALCAO (EC 51916) Artillery, Banal Lal KAUL (EC 51917) Signals, Jatinder SOOD (EC 51918) Infy., Hanuwant Singh DEORA (EC 51919) A.O.C., Gurbakhsh Singh BAHAL (EC 51920) A.S.C., PARAMJIT SINGH (EC 51921) Engineers, Suresh Chandra SHARMA (EC 51922) Infy., Sapru MATHEWS (EC 51923) Artillery, Harsh Kumar GUPTA (EC 51924) Infy., Sarv Shil SHARMA (EC 51925) Artillery, Chaman Lal NAGPAL (EC 51926) A.S.C., Ramesh Maya MANUR (EC 51927) E.M.E., Ramalinga Sadayappa JAGADEESAN (EC 51928) A.S.C., Ghan Singh SANDHU (EC 51929) Artillery, Mukund Kumar THAPA (EC 51930) Infy., Surrender Kumar SANAN (EC 51931) Artillery, Surinder Mohan SUD (EC 51932) Infy., LAKSHMI NARAIN (EC 51933) A.E.C., Om Parkash SHARMA (EC 51934) Infy., Bal Raj JOHAR (EC 51935) Engineers, JOGINDER SINGH (EC 51936) Infy., Babu Dhan LAMA (EC 51937) A.S.C., Manjit Singh CHANDRA (EC 51938) Signals, MOHINDER SINGH (EC 51939) A.S.C., Hiremagalur Bashvam SATYAN (EC 51940), Kashmira Singh BASRA (EC 51941), Gurdev Singh GREWAL (EC 51942) and Parmatma Prasad PANDEY (EC 51943) Artillery, Parackathanathu Velayudhannair SIVAN NAIR (EC 51944) Signals, Ramesh Kumar SAIGAL (EC 51945) E.M.E., CHARAN DASS (EC 51946) A.O.C., Bakshi Kasturi Lal CHHIBBER (EC 51947) A.S.C., Harbhajan Singh BHALLA (EC 51948) Engineers, Dharamvir Singh DAHIYA (EC 51949) and SUDARSHAN KUMAR (EC 51950) Infy., Ravinder Mohan BHARDWAJ (EC 51951) A.S.C., Ravi Kumar CHADHA (EC 51952) Signals, Tekulapalli Narasimha REDDY (EC 51953) Artillery, Jaswant Singh CHHATRE (EC 51954) A.S.C., YOGENDRA PRATAP SINGH (EC 51955) Engineers, Madhukar Ganesh NAIK (EC 51956) A.O.C., RANJIT SINGH (EC 51958) A.O.C., JOGINDER SINGH (EC 51959) E.M.E., Bag Singh BISHT (EC 51960) Artillery, Jeth Raj PUROHIT (EC 51961), Signals, DALIP SINGH (EC 51962) E.M.E., HARIHAR SINGH (EC 51963) A.S.C., Trakki Lal KAPUR (EC 51964) E.M.E., Kashi Nath KAKKAR (EC 51965) A.S.C., JAGDISH CHANDER (EC 51966) Infy., JAGDISH CHANDRA (EC 51967) Signals, Dillip Vvankatesh GUPTA (EC 51969) Engineers, Bhagwan Rewachand HINGORANI (EC 51970) and Ram Singh KANWAR (EC 51971) A.S.C., Jasir Singh KANWAR (EC 51972), Yogendra Nath KASHYAP (EC 51973) and Surendra Kumar AURORA (EC 51974) Infy., Subramaniva Meenakshi Sundaram IYER (EC 51975) Artillery, Rattan Mani SEWAL (EC 51976) Infy., and Arun Kumar GUPTA (EC 51977) E.M.E., 27th Sep. 1963.

Surinder Pal Singh BAJWA (EC 58301) Artillery, Rajinder Pal Singh DHANOA (EC 58302) Infy., Dalbinder Singh GILL (EC 58303) Infy., Mahinder Paul SINGH (EC 58304) E.M.E., Venkatesan CHANDRASEKARAN (EC 58305) Infy., BALWANT RAO (EC 58306) Infy., Martand Rao Balkrishna BHALLERAO (EC 58307) A.S.C., Gurdeep Singh PURI (EC 58308) A.S.C., Tej Bahadur SAXENA (EC 58309) Engineers, Satva Pratap SINGH (EC 58310) Infy., Virender Chander MEHTA (EC 58311) Infy., MALSAWMLIANA (EC 58312) Infy., Bhupendra Pratap SINGH (EC 58313) Infy., Gurdev Singh TURNEY (EC 58314) Infy., RAMADHAR SINGH (EC 58315) Engineers, Om Parkash GUPTA (EC 58316) Signals, Surinder Singh SIDHU (EC 58317) Infy., Raie Singh RAWAT (EC 58318) Infy., Laxmi Nand YADAV (EC 58319) Infy., Utpal Kumar CHAUDHURY (EC 58320) Artillery, Yugal Prakash BHATT (EC 58321) Engineers, KRISHNA PRASAD (EC 58322) A.E.C., Raj Narain KAPUR (EC 58323) Engineers, DHURJATI GHOSHAL (EC 58324) Artillery, BHARGAB CHAKRABARTI (EC 58325) Signals, Kunnathur Subramania RAJAMANI (EC 58326) Engineers, Mahesh Prasad SHARMA (EC 58327) Infy., Inderjeet Singh SETHI (EC 58328) A.O.C., Narinder Singh MALHOTRA (EC 58329) Signals,

Raj Pal CHADHA (EC 58330) Artillery, Gajendra Nath TRIPATHI (EC 58331) Infy., Sudhir Kumar BOSE (EC 58332) Signals, Ramesh Siddheshwarappa NAGARE (EC 58333) Infy., Kapur Singh AHLAWAT (EC 58334) A.S.C., Surjit Singh SIDHU (EC 58335) Infy., SUBHASH KAUSHIK (EC 58336) Infy., Bal Krishan SHARMA (EC 58337) Infy., Bhup Singh TAUNQUE (EC 58338) Infy., Muhammed Eissa MEHEDI (EC 58339) Artillery, OM KUMAR (EC 58340) Engineers, VENKATARAMAN JAYARAMAN (EC 58341) Signals, Balram Mitter JOSHI (EC 58342) Artillery, Jogendra Singh CHHATWAL (EC 58343) Infy., Pemmanda Kushalappa APPALAH (EC 58344) Engineers, Om Prakash CHADHA (EC 58345) Engineers, Arayiseril Lekshmanan JAYABHANU (EC 58346) Signals, BALBIR SINGH (EC 58347) Signals, Brij Bhushan VATSA (EC 58348) Artillery, Balbir Singh AUJLA (EC 58349) Artillery, Kirori Singh BAINSLA (EC 58350) Infy., RANBIR PRASAD (EC 58351) Armoured Corps, Narayan Singh SHAKTAWAT (EC 58352) A.O.C., Devinder Singh KANG (EC 58353) Artillery, NANDALAL DATTA (EC 58354) Engineers, Vinayak Narayan NITSURE (EC 58355) E.M.E., Manohar Singh PANGTEY (EC 58356) Infy., Harinder Singh GILL (EC 58357) A.S.C., Vijayan Menon KARIKATH (EC 58358) Signals, Mohinder Kumar CHOPRA (EC 58359) Artillery, Satya Paul KAPUR (EC 58360) A.S.C., Mahendra Pal SINGH (EC 58361) Artillery, Shyam Singh RAWAT (EC 58362) Infy., SURENDRA SINGH (EC 58363) Infy., M. VARGHESE (EC 58364) Artillery, Baduvanda Uthappa ACHAPPA (EC 58365) Infy., Guru Prasad KASHYAP (EC 58366) A.S.C., Harjit Singh MANSAHIA (EC 58367) Artillery, Satya Prakash MALHOTRA (EC 58368) Engineers, SUSHIL KUMAR (EC 58369) Signals, Bhim Sain SOOD (EC 58370) Artillery, Brij Mohan KOHLI (EC 58372) Signals, Daulat Ram JOHAR (EC 58373) Engineers, Jayant Shrikrishna GADKARI (EC 58374) Signals, NIRANKAR SINGH (EC 58375) A.O.C., DHIAN SINGH (EC 58376) Artillery, Motiram Dhakoo SHIVKAR (EC 58377) Infy., Kishan Lal VERMA (EC 58378) Infy., Gurdip Singh SANDHU (EC 58379) A.S.C., Bhuwan Chandra BISHT (EC 58380) Engineers, AKASH AGA (EC 58381) Infy., NARAYANASWAMY RADHAKRISHNAN (EC 58382) Signals, Narayana Pillai Ramakrishnan NAYAR (EC 58383) A.S.C., Kultar Singh SANDHU (EC 58384) Infy., Dwarka Das ABROL (EC 58385) Engineers, Ajay Lal BANDYOPADHYAY (EC 58386) A.S.C., Gurmej Singh JAUHAL (EC 58387) Artillery, Kanwal Datt BHATIA (EC 58388) Artillery, DARSHAN SINGH (EC 58389) Engineers, Ram Shrish UPADHYAY (EC 58390) Artillery, Prabhat Kant CHATURVEDI (EC 58391) Artillery, Shakti Singh CHANDEL (EC 58392) Infy., Krishan Dayal KAUSHAL (EC 58393) Signals, Hari Gopal VASHISTA (EC 58394) Engineers, Harbans Singh KANG (EC 58395) Artillery, SATNAM SINGH (EC 58396) Artillery, K. Dharam Pal SINGH (EC 58397) Infy., CHUNI LALL (EC 58398) A.S.C., Pramode Kumar BHASIN (EC 58399) Infy., Dev Kumar WADHWA (EC 58400) Signals. 2nd Aug. 1964.

G. SEN, Under Secy.

No. 577 dated, 14th Feb. 1966.—The President is pleased to make the following appointments:—

REGULAR ARMY

Special List

To be Naib Sub. (Religious Teacher)

Ram Prashad SHARMA (JC 37348) A.S.C., 26th Sep. 1964.

Shashi Bhushan SHARMA (JC 37349) A.S.C., 27th Nov. 1964.

C. V. NARAYANAN, Under Secy.

No. 578, dated 19th Feb. 1966.—The President is pleased to grant an extension of service of one year to the under-mentioned officer from 1st Jan. 1966 to 31st Dec. 1966:—
Maj.-Gen. Jogindar Singh (IC 203).

D. R. KOHLI, Jr. Secy.

No. 579, dated 15th Feb. 1966.—The President is pleased to grant extension of re-employed service to the under-mentioned officer (who was granted fresh Short Service Regular Commission under AI 8/S/57 w.e.f. 29th July 1960 vide M.

of D. Notn No. 800 dated 9th Apr. 1962 published in the Gazette dated 21st Apr. 1962) for the period mentioned against his name :—

Lt. (A/Capt.) SHIVA SINGH (SS 17644) Inf., w.e.f. 29th July 1965 to 28th July 1966.

No. 580, dated 15th Feb. 1966.—The President is pleased to grant extension of re-employed service to the undermentioned officer (who was granted fresh Short Service Regular Commission under AI 8/S/57 w.e.f. 3rd Sep. 1960 vide M. of D. Notn No. 1566 dated 24th July 1961 published in the Gazette dated 5th Aug. 1961) for the period mentioned against his name :—

Lt. Gurnam Singh BANAIK (SS 17646) Inf., w.e.f. 3rd Sep. 1965 to 2nd Sep. 1966.

No. 581, dated 15th Feb. 1966.—The President is pleased to grant extension of re-employed service to the undermentioned officer (who was granted fresh Short Service Regular Commission under AI 8/S/57 w.e.f. 5th Sep. 1960 vide M. of D. Notn No. 1924 dated 4th Sep. 1961 published in the Gazette dated 16th Sep. 1961) for the period mentioned against his name :—

Capt. Sivasankara Pillai PADMANABHAN NAIR (SS 17645) Inf., w.e.f. 5th Sep. 1965 to 4th Sep. 1966.

G. SEN, Under Secy.

No. 582, dated 17th Feb. 1966.—The President is pleased to re-employ as Assistant Recruiting Officers, the undermentioned ex-JCOs on active list in the rank :—

REGULAR ARMY

Recruiting Staff

No. JC-12761 Sub. Maj. (H/Capt.) RATAN SINGH, Bihar Regt. re-employed as Sub. Maj. Group 'F'—10th Dec. 1965.

No. JC-32750 Sub. (H/Lt.) CHHOTU RAM ASC (Sup.) re-employed as Sub. Group 'F'—17th Dec. 1965.

G. D. CHOWDHRY, Under Secy.

No. 583, dated 15th Feb. 1966.—The President is pleased to confirm the undermentioned officers (who were granted Permanent Commission (on probn.) from 27th Sep. 1963) on completion of their probationary period :—

REGULAR ARMY

Permanent Commission

To be 2/Lts.

Gautam Mubayi (IC 15689) Inf., Shantonu Choudhury (IC 15690) Artillery, Rajendar Singh (IC 15692) A.S.C., Sher Singh Rana (IC 15694) Inf., Sardul Singh (IC 15719) Inf., Mahavir Singh Solanki (IC 15720) Inf., Kallaveetil Parameswaran (IC 15721) Artillery, Tikam Singh Tosaria (IC 15722) Inf., Jal Karan Singh (IC 15697) A.O.C., Har Bhajan Singh Hora (IC 15723) Artillery, Om Parkash Batra (IC 15700) Artillery, Baldev Kumar Gawari (IC 15701) E.M.E., Vilay Datta (IC 15702) E.M.E., Subhash Chander (IC 15703) E.M.E., Kulwant Singh (IC 15707) Inf., Harsaran Singh Sawhney (IC 15706) Artillery, Dhyan Singh Sathia (IC 15709) Inf., Amrit Mohan Singh (IC 15711) A.O.C., Prem Swarup Saraswat (IC 15725) Inf., Attar Singh Dhankar (IC 15727) Artillery, Gabar Singh Rawat (IC 15728) A.S.C., Kartar Singh (IC 15730) Inf., Hari Singh Thapa (IC 15732) Inf., Ranbir Singh Yadav (IC 15734) Artillery, Shri Bkush Singh (IC 15736) Inf., Kanwar Sain (IC 15737) Inf., Balbir Singh (IC 15739) Armoured Corps., Sukhdev Singh (IC 15740) Engineers, Harohool Singh Strohi (IC 15741) Inf., M. Hadrianus (IC 15742) Artillery, Jasdev Singh Kanwar (IC 15743) Artillery, Gur Baksh Singh Bakshi (IC 15744) A.O.C., Shiv Dev Singh (IC 15745) Inf., Prem Lal Umbu (IC 15748 E.M.E., Sham Sher Singh Gurung (IC 15753) Inf., Ram Nath Ram (IC 15754) Signals, Harbans Singh Pathania (IC 15758) Inf., Parmeshwar Singh (IC 15759) Inf., Richhpal Singh Panwar (IC 15760) A.S.C., Indra Pal Singh Rathore (IC 15762) Inf., Tarsem Singh (IC 15761) Artillery, Bharat Singh Yadave (IC 15763) Inf., Krishan Singh Jasrota (IC 15765) Inf., Kunukara Chenamannu Chandran (IC 15768) A.O.C., Kapil Dev Ghai (IC 15769) Inf., Jagjit Singh (IC 15770) A.S.C., Dhan Man Rai (IC 15773) Signals, Tek Bahadur Rana (IC 15772) Inf., Mahendra Pal Singh (IC 15774) A.S.C., Bachan Singh (IC 15776) Inf., Kamendra Singh Panawar (IC 15777) A.S.C.

No. 584, dated 15th Feb. 1966.—The President is pleased to confirm the undermentioned officers (who were granted

Permanent Commission (on probn.) from 9th Feb. 1964) on completion of their probationary period :—

REGULAR ARMY

Permanent Commission

To be 2/Lts.

Amarjit Singh Sekhon (IC 15936) Armoured Corps, Bhatharan Karimbil (IC 15937) Artillery, Tejindar Singh Shergill (IC 15786) Armoured Corps, Mahesh Vij (IC 15787) Inf., Sukhdip Singh Mann (IC 15789) Inf., Ran Bahadur Singh Rana (IC 15790) Inf., Kuldip Singh Perhar (IC 15791) Inf., Kanwal Kumar Lakhpal (IC 15794) Inf., John Ranjan Mukherjee (IC 15795) Inf., James Vimal Abraham (IC 15798) Inf., Kanwal Kant Kapur (IC 15799) Engineers, Brijendra Singh (IC 15800) Armoured Corps, Umang Seth (IC 15805) Inf., Rajinder Singh Anand (IC 15806) Armoured Corps, Kamal Nayan Pandit (IC 15808) E.M.E., Kapil Vij (IC 15809) Armoured Corps, Youngendra Pal Sachdeva (IC 15810) Inf., Ranjeet Singh Choridia (IC 15939) Inf., Chander Mohan Sachdeva (IC 15812) Inf., Balashaeb Appashaeb Patil (IC 15814) Inf., Khopkar Charu Prabhakar (IC 15817) Artillery, Amreshwar Dayal Seth (IC 15818) Armoured Corps, Rajan Parmanand Aney (IC 15819) Armoured Corps, Satish Chandra Bhatia (IC 15820) A.O.C., Nabhojyoti Deka (IC 15822) Inf., Panna Lal Prashar (IC 15824) Inf., Gaye Cursetjee (IC 15826) Armoured Corps, Ashutosh Kumar Sharma (IC 15827) Inf., Indrajit Kumar Sen (IC 15829) Artillery, Dharam Chand Ola (IC 15830) Inf., Arvind Kumar (IC 15831) Artillery, Shreekant Yeshwant Karve (IC 15840) Artillery, John Taylor (IC 15941) Inf., Ashok Malhotra (IC 15843) Inf., Surinder Kumar Mahajan (IC 15845) A.O.C., Bharat Nath Kaul (IC 15847) A.S.C., Behram Maneckshah Panthaki (IC 15943) Inf., Manmohan Singh Chhabra (IC 15855) A.O.C., Harjit Singh (IC 15858) Inf., Kongbrai Guneshwar Sharma (IC 15945) Artillery, Jagjit Singh Chandyoke (IC 15860) Inf., Sudesh Kumar Kaushal (IC 15947) Artillery, Vijay Kumar Kapoor (IC 15861) Armoured Corps, Promod Kumar Uppal (IC 15862) Inf., Sarblit Singh Ahluwalia (IC 15863) Inf., Ravinder Iqbal Singh (IC 15866) Artillery, Arun Chandra Mahanta (IC 15869) Inf., Tejindar Singh (IC 15868) Inf., Dhandev Singh Dhillon (IC 15871) Armoured Corps, Vikram Narula (IC 15873) Inf., Shamsher Singh Mehta (IC 15876) Artillery, Krishna Pal Singh (IC 15877) Inf., Krishna Chandra (IC 15953) Artillery, Yoginder Katoch (IC 15879) Inf., Padmalayam Kesavapillai Viswanatha Panicker (IC 15954) Artillery, Hardal Singh (IC 15955) Inf., Hardarshan Singh Tur (IC 15886) A.S.C., Bharat Singh (IC 15887) Artillery, Ajit Narain Bhardwaj (IC 15888) Artillery, Vneet Pant (IC 15889) Inf., Satyendra Nath (IC 15890) Inf., Dharmendra Pratap Narain Singh Rajkumar (IC 15957) Inf., Mohammed Mohluddin Zaki (IC 15892) Inf., Satish R. Pradhan (IC 15961) Inf., Daljit Singh (IC 15962) Inf., Jagmohan Rawat (IC 15896) Inf., Suresh Chander Sareen (IC 15908) Artillery, Vrinder Kumar Ralli (IC 15900) Inf., Nagaraj Sastry (IC 15901) Artillery, Aneet Singh Sihota (IC 15902) Armoured Corps, Nirmal Prasad Sharma (IC 15903) Inf., Kamlesh Kumar Puri (IC 15912) Inf., Chandroth Kunhiraman Jayram Das (IC 15913) Artillery, Arun Kumar Chowdhry (IC 15914) A.S.C., Ashok Chaki (IC 15915) Inf., Chater Singh Chahar (IC 15917) A.S.C., Cyaneshwar Prasad (IC 15916) A.S.C., Anil Sagar (IC 15921) Armoured Corps, Gora Ray (IC 15922) Inf., Krishnan Nair Raghavan Pillai (IC 15967) Signals, Rajendra Singh Inf., (IC 15926) Inf., Vijay Kapoor (IC 15927) Artillery, Mysore Nanjundlah Shankar (IC 15829) Artillery, Ramesh Chander Tanoja (IC 15970) A.O.C., Pinaiki Basu (IC 15930) Inf., Jagdish Chander (IC 15931) A.S.C., Raj Manpreet Srinivasan (IC 15978) A.O.C., Mahavir Singh Mahlawat (IC 15979) A.S.C., Anil Kochhar (IC 15980) Artillery, Krishan Gopal Vasdev (IC 15984) A.S.C., and Rajendra Prasad Rohilla (IC 15935) A.S.C.

No. 585, dated 15th Feb. 1966.—The President is pleased to confirm the undermentioned officers (who were granted Permanent Commission (on probn.) from 2nd Aug. 1964) on completion of their probationary period :

REGULAR ARMY

Permanent Commission

To be 2/Lts.

Jitendra Singh Varma (IC 16033) Armoured Corps, Rajinder Singh Cheema (IC 16040) Inf., Sanjive Kumar Bakshi

(IC 16041) Infy., Prakash Ramarao Misal (IC 16045) Artillery, Dilip Singh Dinkar Rao Mandlik (IC 16049) Infy., Gurcharn Singh Brar (IC 16050) Infy., Anil Kumar Banerjee (IC 16053) Inf., Gurcharn Singh Choudhary (IC 16055) Infy., Balwant Singh (IC 16056) Infy., Shiveshwar Dayal (IC 16060) Infy., Arun Kumar (IC 16061) Artillery, Narayan Singh Malik (IC 16068) Infy., Nirmal Shah (IC 16070) Infy., Chand Singh Dalal (IC 16076) Infy., Amrik Singh Hans Rao (IC 16083) Infy., Jogendra Singh (IC 16084) Infy., Ramesh Bhatia (IC 16087) Infy., Shamsheer Jung Bahadur Singh Hans (IC 16089) Infy., Ramesh Krishna Chavan (IC 16091) A.S.C., Yogendra Singh (IC 16185) Infy., Ashok Nagpaul (IC 16106) Infy., Inder Jeet Singh (IC 16107) Infy., Yashpal Singh Sirohi (IC 16115) A.S.C., Parminder Jit Singh Mehta (IC 16117) Armoured Corps, Bhup Singh (IC 16118) Infy., Krishna Swamy Gopal (IC 16121) Infy., Suttamally Subramania Sundara Raman (IC 16131) Infy., Chander Mohan Mehta (IC 16133) Infy., Dileep Vishwanath Dongre (IC 16134) Infy., Sarbjit Singh Sidhu (IC 16135) Infy., Pattada Chittappa Uthappa (IC 16136) Infy., Raj Kumar Singh (IC 16137) Infy., Atal Nath Sinha (IC 16143) Infy., Laxhman Singh Modi (IC 16147) Artillery, Jagdishwar Gandhi (IC 16151) Infy., Manohar Shrinivas Karpe (IC 16152) Infy., Kamal Kishore Passi (IC 16153) A.O.C., Ajit Dutta (IC 16154) Infy., Partap Singh (IC 16155) Infy., Prem Singh Dogra (IC 16159) Infy., Arivind Patil Ramchandra (IC 16187) Infy., Lalit Mohan Bhatia (IC 16165) Infy., Amil Ramesh Railkar (IC 16166) Infy., Satish Chander Gujral (IC 16173) A.S.C., Virinder Kochhar (IC 16175) A.S.C., Shiva Kumar Sharma (IC 16191) Infy., Surender Paul Chadha (IC 16178) Infy., Karan Raj Puri (IC 16183) Infy., Kochappanpillai Gopalakrishnan Nayar (IC 16194) Signals and Marunнарakal Chathumpalli Ramanand (IC 16184) Artillery.

G. SEN, Under Secy.

No. 586, dated 19th Feb. 1966.—The President is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY

Regular Commission

To be Subs. Cols.

Lt.-Col. A. V. Mujumdar (IC 3757), J.A.G.'s Dept., 10th Oct. 1964.

Lt.-Col. B. V. Siddhaye (IC 3904), J.A.G.'s Dept., 28th Feb. 1965.

V. SUBRAHMANYAN, Dy. Secy.

No. 587, dated 21st Feb. 1966.—The President is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY

Regular Commission

Maj. to be subs. Lt. Col. (Time-scale)

Mango Ram (IC 620) Inf., 15th May 1965.

Cpts. to be Majs.

J. J. Bavaadam (IC 4038) Armoured Corps, 12th Dec. 1965.

R. C. Virmani (IC 6116) Armoured Corps, D. D. Batra (IC 6105), S.I.S., Bal (IC 6158), Y. K. Sondhi (IC 6173), Bhagat Singh (IC 6175), P. K. Tankha (IC 6184) and D. S. Sukarchakia (IC 6200) Artillery, K. Kumaran (IC 6128), N. R. Purandare (IC 6160), Y. P. Khurana (IC 6170) and H. S. Sodhi (IC 6187), S. Sable (IC 6131), A. K. Minocha (IC 6159) and Sushil Nath (IC 6180) Signals, A. S. Bhullar (IC 6125), A. K. Lahiri (IC 6143), I. M. Sharma (IC 6185) and T. V. Manoharan (IC 6235) E.M.E., 28th Dec. 1965.

R. Shahani (IC 6108), S. K. Prasad (IC 6112), N. Sondhi (IC 6130), B. N. Kaul (IC 6145), Ashok Mangalik (IC 6161), S. C. Mohinder (IC 6237), M. L. Kumar (IC 6247) and B. Misra (IC 6254) Artillery, B. K. Larola (IC 6107) Engineers, O. P. Bahukhandi (IC 6169) Inf. and Gajendra Singh (IC 6239) A.O.C., 28th Dec. 1965.

Lts. to be Cpts.

A. Paul (IC 11120) Artillery, 14th Dec. 1965.

S. S. Sethi (IC 11825), R. K. Mittal (IC 11842), S. Padmanabhan (IC 11859), S. S. Gvani (IC 11864), R. Sagar (IC 11881), V. Patil (IC 11885), S. P. Sharma (IC 11903), S. K. Grover (IC 11906), A. C. Prem (IC 11917), R. Mehra (IC 11924), R. K. Khosla (IC 11931), K. B. Nanda (IC 11933), G. S. Chopra (IC 11934), V. S. Oberoi (IC 11949), S. S. Khare (IC 11958), Pritam Singh (IC 11961), A. K. Suri (IC 11963), M. R. Sabharwal (IC 11964) and S. Khanna (IC 11977) Artillery, 13th Dec. 1965.

A. N. Luthra (IC 11805), Paramjit Singh (IC 11809), G. S. Somal (IC 11813), B. P. S. Deol (IC 11819), A. S. Sandhu (IC 11823), A. Johar (IC 11846), D. S. Virk (IC 11873), J. S. Sabherwal (IC 11889), P. K. Gupta (IC 11896), V. K. Sahni (IC 11939), K. Varma (IC 11943), L. M. Kapur (IC 11955), S. P. Kapoor (IC 11966), S. Khanna (IC 12012) and H. Krishnayya (IC 12019) Armoured Corps, 13th Dec. 1965.

H. S. Dhillon (IC 11824) and S. K. Dania (IC 11871) Artillery, 13th Dec. 1965.

REGULAR ARMY

Permanent Commission

Majs. to be subs. Lt. Cols.

B. Mehta (IC 3127) A.S.C., (but with seniority from 11th Dec. 1964 without effect on pay and pension), 15th June 1965.

Punanghat Sreedhara Menon (IC 8007) A.S.C., (but with seniority from 15th Mar. 1965 without effect on pay and pension), 20th July 1965.

Rachhpal Singh (IC 1666) A.S.C., (but with seniority from 2nd June 1965 without effect on pay and pension), 24th Aug. 1965.

Sunder Singh Kalra (IC 2912) A.S.C., (but with seniority from 2nd June 1965 without effect on pay and pension), 30th Sep. 1965.

Santipriya Ganguly (IC 3653) A.S.C., (but with seniority from 2nd June 1965 without effect on pay and pension), 8th Sep. 1965.

Ved Prakash Singhal (IC 2991) A.S.C., (but with seniority from 2nd June 1965 without effect on pay and pension), 12th June 1965.

Maj. to be subs. Lt. Col. (Time-scale)

N. N. Mukerjee (IC 2662) Inf., 21st Dec. 1965.

Cpts. to be Majs.

S. S. Grewal (IC 6149) and Kuldip Singh (IC 6209) Engineers, Y. R. Ratra (IC 6167) Signals, N. K. Jaitly (IC 6156), S. M. Charupa (IC 6166), M. S. Sandhu (IC 6182), M. M. Chopra (IC 6244) and B. B. Upreti (IC 6249) Inf., 28th Dec. 1965.

A. Moulik (IC 6215) E.M.E., 1st Jan. 1966.

P. S. Rawat (IC 6091) Artillery, 10th Jan. 1966.

REGULAR ARMY

Permanent Commission (Special List)

Cpts. to be Majs.

D. N. Saldha (SL 473) and J. N. Dogra (SL 216), 21st Dec. 1965.

2/Lts. to be Lts.

Mul Raj (SL 982), B. Nair (SL 879), V. Velayutham (SL 880), T. R. Mehta (SL 985), V. Gangadharan (SL 873), B. S. Varma (SL 881), K. K. Karunakaran Nambiar (SL 883), B. L. Wadhwa (SL 885), S. P. Yadav (SL 975), Diwan Chand (SL 978), H. L. Kapoor (SL 986), 4th Jan. 1966.

REGULAR ARMY

Emergency Commission

2/Lts. to be Lts.

Yogendra Singh (EC 52219), B. S. A. Venkataraman (EC 52588) and V. V. Ananthan (EC 52352) Signals, 27th Sep. 1965.

U.P.V.A.K. Nair (EC 52223), R. C. Chopra (EC 52288), S. S. L. Tewari (EC 52547) and H. A. Arfi (EC 52747) A.S.C., 27th Sep. 1965.

J. G. Oilkara (EC 52431), J. S. Sidhu (EC 52313), K. P. R. Nambiar (EC 52674), J. R. Handa (EC 52807), V. K. Naroola (EC 52821), G. M. Chavan (EC 52517), R. P. Jajrath (EC 52239) and D. R. Saini (EC 52220) Engineers, 27th Sep. 1965.

REGULAR ARMY

Army Dental Corps

Short Service Commission

Lts. to be Cpts.

C. J. LOUZADO (DS 11171), MAHENDRA AZAD (DS 11173), C. JACOB (DS 11175), SANTOSH KUMAR (DS 11176), M. M. L. AHLUWALIA (DS 11177), A. K. DEB (DS 11178), R. G. GUPTA (DS 11179), SURENDRA MOHAN (DS 11181), M. M. CHOPRA (DS 11183), BALBIR SINGH (DS 11184), S. P. PURI (DS 11185), S. P. ANCHERIL (DS 11186), O. P. SHRIVASTAVA (DS 11187) and P. K. MANICKAM (DS 11188), 1st Jan. 1966.

REGULAR ARMY

*Corps of Electrical and Mechanical Engineers**CHM: to be Naib Sub. Armt. Art.*

Abu Backer (No. 7004374 now JC-37414), M. Balakrishnan (No. 7004196 now JC-37415), T. A. NANAYYA (No. 7012376 now JC-37416), M. Subramaniam (No. 7012396 now JC-37417), Partap Chand (No. 7012765 now JC-37418), Sudershan Lal (No. 7003338 now JC-37419), Jagmal Singh (No. 7003369 now JC-37420), Jagdish Prasad (No. 7011827 now JC-37421), Balwant Singh (No. 7012719 now JC-37422), Bibhutibhushan MISRA (No. 7022668 now JC-37423), Raj Kumar ROY (No. 7004269 now JC-37424), Parshotam Dass (No. 7011789 now JC-37425), Suren Tigga (No. 7011924 now JC-37426), Mohindar Singh (No. 7011933 now JC-37427), Krishna Lal NAHA (No. 7012609 now JC-37428), M. Appa RAO (No. 6999648 now JC-37429), Pralhad Yerdoni (No. 7012695 now JC-37430) and Ran Jeet Singh (No. 7009282 now JC-37431), 17th Oct. 1965.

Hav.: to be Naib Sub. (Storemen Technical)

Shiv Charan (No. 6993876 now JC-37432), 1st Oct. 1965.

Hav.: to be Naib Sub. Armourer

Daya Chand (No. 2631353 now JC-37433), 1st Nov. 1965.
Gurmit Singh (No. 7001533 now JC-37434), Gajjan Singh (No. 7001537 now JC-37435), Om Parkash VIJ (No. 7001667 now JC-37436), Kartar Singh (No. 7001630 now JC-37437), Chaman Lal (No. 7001652 now JC-37438), Naranjan Singh (No. 7001705 now JC-37439), Jagir Singh (No. 7002039 now JC-37440), Shamsher Singh KOUSHAL (No. 5829823 now JC-37441), M. R. DIWAN (No. 7005183 now JC-37442), Parshotam Deo (No. 7006970 now JC-37443), Satya Pal CHADHA (No. 7003018 now JC-37444), Arjun Bahadur (No. 7009184 now JC-37445), Sishpal Singh (No. 7003363 now JC-37446), Ram Parkash (No. 7003381 now JC-37447), Dharam Singh (No. 7009678 now JC-37448), Manohar Lal (No. 7001736 now JC-37449), Gurbachan Singh (No. 6999976 now JC-37450), Priya Toth CHAKRAVARTY (No. 7007252 now JC-37451), Sat Pal (No. 7009891 now JC-37452), Dwarka Dasa (No. 7003379 now JC-37453), Shiv Bhusan Kumar (No. 7003390 now JC-37454), Gurudas MUKHERJEE (No. 7010393 now JC-37455), Chandra Narayan MUKHERJEE (No. 7010105 now JC-37456) and Sarwan Singh (No. 7001600 now JC-37457), 1st Dec. 1965.

Hav.: to be Naib Sub. Artz (Non-Eligible Categories)

Hanuman PANDEY (No. 6998735 now JC-37458), Jaganath Rao JORGALKAR (No. 7001451 now JC-37459), Appukuttan (No. 7001902 now JC-37460), V. Raman NAIR (No. 7001915 now JC-37461), Jaswant Singh (No. 7002078 now JC-37462), Nani Gopal CHAKRAVARTY (No. 6989041 now JC-37463), Surinder Kumar (No. 6996242 now JC-37464) and Monoranjan ADHIKARY (No. 7000678 now JC-37465), 1st Dec. 1965.

Hav.: to be Naib Sub. Driving Wing

Bhimanna Gondhali (No. 7002400 now JC-37466) and Hans Raj (No. 7003036 now JC-37467), 16th Sep. 1965.

K. KORAN (No. 6981703 now JC-37468), A. Antony (No. 6985656 now JC-37469), Balakrishnamaraja (No. 6985706 now JC-37470), V. Signaravelu (No. 6986288 now JC-37471), Man Singh (No. 6996626 now JC-37472), Mandadi Yacobe (No. 6429420 now JC-37473), Prem Singh (No. 6996610 now JC-37474), Nahar Singh (No. 6996629 now JC-37475), Lachmanan (No. 6429211 now JC-37476), Madhavan Nambiar (No. 6995070 now JC-37477), V. N. Rajappan PILLAY (No. 6540233 now JC-37478), P. T. Anthoni (No. 6429203 now JC-37479), Thangaraj (No. 6987809 now JC-37480), P. V. Narayana (No. 6429516 now JC-37481), Devasikamony (No. 6995288 now JC-37482), Chiman Singh RAWAT (No. 4628290 now JC-37483), Joseph (No. 6995741 now JC-37484), S. T. Veerasamy (No. 6995738 now JC-37485), Mariadoss M. C. (No. 6995793 now JC-37486), P. S. Williams (No. 6995809 now JC-37487), Bherun Singh RAWAT (No. 4628802 now JC-37488), K. K. Keshvan (No. 6996035 now JC-37489), Jawala Singh (No. 6996161 now JC-37490), Puna Rawat (No. 4628806 now JC-37491), Rajaekaran (No. 6996578 now JC-37492), Chanda (No. 6996808 now JC-37493), Karan Singh RAWAT (No. 6996635 now JC-37494), Ummer (No. 6996913 now

JC-37495), P. Damodara NAIR (No. 6996917 now JC-37496), Duni Chand (No. 6997140 now JC-37497), Amullya Chandra ROY (No. 6997290 now JC-37498), Hari Ram (No. 6997418 now JC-37499) and Sadhu Singh (No. 6429094 now JC-37500), 1st Dec. 1965.

REGULAR ARMY

*Directorate General of Border Roads**Seconded from EME**Hav.: to be Naib Sub. Clerk (GD)*

S. NARAYANASWAMY (No. 7012249 now JC-37413), 2nd Mar. 1965.

G. SEN, Under Secy.

No. 588, dated 17th Feb. 1966.—The President is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY

*A.S.C. (Animal Transport)**Ris. to be Ris. Maj.*

Gurdas Singh (JC-3081), 1st Nov. 1965.

Mohindar Singh (JC-3084), 16th Dec. 1965.

Nb. Ris. to be Ris.

Ram Kumar (JC-17734), 1st Nov. 1965.

Guna Nand (JC-17735), 11th Nov. 1965.

Badri Datt SATI (JC-17736), 29th Nov. 1965.

Gobind Singh RAWAT (JC-17737), 16th Dec. 1965.

Satish Chander SHANTOURIA (JC-17738), 18th Dec. 1965.

Patras Besra (JC-17739), 22nd Dec. 1965.

Bijai Singh (JC-17740), 1st Jan. 1966.

Sub. (Clerk GD) to be Sub-Maj. (Clerk GD)

Kasturi Lall (37039-JC) A.S.C., 14th Jan. 1964.

Subs. (Clerks GD) to be Sub-Majs. (Clerks GD)

Kavasseri Krishna Iyer Ramaswamy (37079-JC) A.S.C., 17th Nov. 1965.

Bhagwan Dass HANDA (37088-JC) A.S.C., 8th Feb. 1966.

Naib Subs. (Clerks GD) to be Subs. (Clerk GD)

Khan Chand JHANB (37261-JC) A.S.C. and Gian Chand NANGIA (37317-JC) A.S.C., 1st Mar. 1964.

Naib Subs. (Clerks GD) to be Subs. (Clerks GD)

Dina Nath KANDA (JC-13130) A.S.C. and Ram Dayal Singh (JC-13131) A.S.C., 26th Nov. 1965.

Gulzari Lal (JC-13132) A.S.C. 8th Feb. 1965.

Havs. (Clerk GD(SD)) to be Naib Subs. (Clerk GD(SD))

Gurbachan Singh (No. 7129489 now JC-37321) A.S.C., 22nd Nov. 1964.

Rattan Lal SHARMA (No. 7129559 now JC-37322) A.S.C., 12th Dec. 1964.

Iqbal Singh (No. 7129816 now JC-37323) A.S.C., 1st Feb. 1965.

Achhar Mal SHARMA (No. 7129514 now JC-37324) A.S.C., 28th Feb. 1965.

Manindra Nath BAKSHI (No. 7128117 now JC-37325), Tirloki Nath VERMA (No. 7129412 now JC-37326), Shishupal Singh CHAUHAN (No. 7129429 now JC-37327), Birendra Nath GANGULY (No. 7130976 now JC-37328), Joydeb Kumar MUKHERJI (No. 6852804 now JC-37329), Jit Singh SAWHNEY (No. 7129513 now JC-37330), Kashmiri Lal (No. 7130978 now JC-37331) and Onkar Swarup BHAT-NAGAR (No. 7129255 now JC-37332) A.S.C., 1st May 1965.
Gian Singh (No. 7129493 now JC-37333) and Sohan Singh (No. 7129416 now JC-37334) A.S.C., 26th May 1965.

Ram Lal MISHRA (No. 7128220 now JC-37335), Kizhakemuriyil Narayanan Bhaskara PANICKER (No. 7129537) now JC-37336) and Monindra Mohan CHAKRABARTY (No. 7129358 now JC-37337) A.S.C., 22nd July 1965.

Pulichimamveetil Idicula CHACKO (No. 7971990 now JC-37338), Dharam Pal SUHAG (No. 7128267 now JC-37339), Bhim Sain (No. 7983466 now JC-37340), Veeranathevar ARULAPPAN (No. 7129361 now JC-37341), Sedhu Ram (No. 7984560 now JC-37342), Nibaram Chandra SAHA (No. 7128451 now JC-37343) and Hariram (No. 7128336 now JC-37344) A.S.C., 10th Aug. 1965.

Aswini Kumar PANDA (No. 7129354 now JC-37345) and Appancoil Venkatarama SANKARAN (No. 7128497 now JC-37346) A.S.C., 4th Sep. 1965.

Havs. (Clerk Store) to be Naib Sub. (Clerk Store)

Makhan Lal CHANDA (No. 6629427 now JC 36983) A.S.C., 1st Dec. 1964.

Sujan Singh (No. 6632531 now JC 36984) A.S.C., Sanwat Singh (No. 6633046 now JC 36985) A.S.C., Tilak Raj (No. 6633283 now JC 36986) A.S.C., Nirmal Singh (No. 6632799 now JC 36987) A.S.C., Dalip Singh (No. 6628014 now JC 36988) A.S.C., Sucha Singh (No. 6628344 now JC 36989) A.S.C., Sewa Singh (No. 6628094 now JC 36990) A.S.C., Suraj Parkash (No. 6628220 now JC 36991) A.S.C., Bhagwan Dass (No. 6628989 now JC 36992) A.S.C., Ram Ashcharya TRIPATHI (No. 6629405 now JC 36993) A.S.C., Pritam Singh (No. 6628244 now JC 36994) A.S.C., Saranjit Singh Gill (No. 6628279 now JC 36995) A.S.C., Hardial Singh OBHI (No. 6628326 now JC 36996) A.S.C., Dharam Singh YADAVA (No. 6628360 now JC 36997) A.S.C., Rattan Chand (No. 6628438 now JC 36998) A.S.C., Ayilliath Kuttery Kunhappa NAMBIAR (No. 6729881 now JC 36999) A.S.C., Bihari Lal (No. 6629266 now JC 37000) A.S.C., Karam Singh (No. 6629269 now JC 37001) A.S.C., Vishwa Nath Prasad (No. 6629280 now JC 37002) A.S.C., Rikhi Ram (No. 6629301 now JC 37003) A.S.C., Mehar Singh (No. 6629319 now JC 37004) A.S.C., Didar Singh (No. 6629349 now JC 37005) A.S.C., Jaipal Singh RANA (No. 1006664 now JC 37006) A.S.C., Krishan Dev Singh (No. 6629373 now JC 37007) A.S.C., Jagdev Singh SODHI (No. 6629358 now JC 37008) A.S.C., Mangat Ram (No. 6629391 now JC 37009) A.S.C., Vadakke Nadayil Thomas Jacob (No. 6631728 now JC 37010) A.S.C., Ram Narain Singh (No. 6631645 now JC 37011) A.S.C., Harmohan Lal (No. 6629406 now JC 37012) A.S.C., Ram Narain (No. 6629407 now JC 37013) A.S.C., Santokh Chand KATOCH (No. 6629452 now JC 37014) A.S.C., Harnek Singh (No. 6340385 now JC 37015) A.S.C., Birj Lal (No. 6340383 now JC 37016) A.S.C., Hukam Chand (No. 6629449 now JC 37017) A.S.C., Mohar Chand (No. 8508449 now JC 37018) A.S.C., Dharam Singh (No. 6629468 now JC 37019) A.S.C., Mati Lal SAHA (No. 8635402 now JC 37020) A.S.C., Jitendra Chandra LODH (No. 6629284 now JC 37021) A.S.C., Sultan Singh (No. 6629303 now JC 37022) A.S.C., Gurdial Singh VEDI (No. 6628962 now JC 37023) A.S.C., 1st Feb. 1965.

Malickal Devassy Joseph (No. 6341091 now JC 37024) A.S.C., 18th Apr. 1965.

Hav. (MT) to be Naib Sub. (MT)

Giani Ram (No. 6548005 now JC-36953) A.S.C., 17th June 1965.

Albert D' SOUZA (No. 6569987 now JC-36954) A.S.C. and Jaya Raj (No. 6566027 now JC-36955) A.S.C., 18th June 1965.

Alamanda Philip (No. 6543182 now JC-36956) A.S.C., 19th June 1965.

Jager Deo Singh (No. 6535733 now JC-36957) A.S.C., 23rd June 1965.

Karuvankandi Kunhikrishnan NAIR (No. 6569652 now JC-36958) A.S.C., 24th June 1965.

Munusu Periya Karappa Thevar RAMASAMI (No. 6569648 now JC-36959) A.S.C., 7th July 1965.*

*(With ante-dated seniority without effect on pay and allowances w.e.f. 2nd July 1965.)

Balakrishna KURUP (No. 6542706 now JC-36960) A.S.C., 3rd July 1965.

Binda Prasad Singh (No. 6542170 now JC-36961) A.S.C., 5th July 1965.

Kavuvilal Narayanapillai Sivasankaran NAIR (No. 6574279 now JC-36962) A.S.C., 8th July 1965.

Zile Singh (No. 6533732 now JC-36963) A.S.C., Birbal SHARMA (No. 6544592 now JC-36964) A.S.C. and Bala Datt (No. 6575941 now JC-36965) A.S.C., 9th July 1965.

Parshotam (No. 6528019 now JC-36966) A.S.C., 11th July 1965.

Suresh Nand (No. 6537413 now JC-36967) A.S.C., 15th Aug. 1965.‡

‡(With ante-dated seniority without effect on pay and allowances w.e.f. 11th July 1965.)

Tara Chand (No. 6540320 now JC-36968) A.S.C., 25th July 1965.£

£(With ante-dated seniority without effect on pay and allowances w.e.f. 12th July 1965.)

Surj Narain (No. 6533265 now JC-36969) A.S.C., 12th July 1965.

Parbhoo Dayal (No. 6541502 now JC-36970) A.S.C., 14th July 1965.

Chhotu (No. 6534331 now JC-36971) A.S.C., 27th July 1965.®

®(With ante-dated seniority without effect on pay and allowances w.e.f. 14th July 1965.)

Ram Sarup (No. 6537705 now JC-36972) A.S.C., 14th July 1965.

Sunder Singh (No. 6540754 now JC-36973) A.S.C., 15th July 1965.

Madho Ram (No. 6537714 now JC-36974) A.S.C., 17th July 1965.

Ravarichindavida Mavaton PADMANABHA KURUP (No. 6539905 now JC-36975) A.S.C., 18th July 1965.

Piare Lal (No. 8522142 now JC-36976) A.S.C., 19th July 1965.

Jogendra CHAUDHARY (No. 6548453 now JC-36977) A.S.C., 21st July 1965.

Ram Chander (No. 1002855 now JC-36978) A.S.C. and Baba Din (No. 6530066 now JC-36979) A.S.C., 22nd July 1965.

Fateh Singh (No. 6582483 now JC-36980) A.S.C., 24th July 1965.

Narain Singh (No. 6582423 now JC-36981) A.S.C., 25th July 1965.

Jai Singh (No. 6581987 now JC-36982) A.S.C., 25th July 1965.

Sansardev Singh (No. 6581827 now JC-37347) A.S.C., 24th July 1965.

C. V. NARAYANAN, Under Secy.

No. 589, dated 16th Feb. 1966.—The President is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY

Infantry

The Bihar Regt.

To be Naib Subdrs.

Hav. Tribeni Singh (No. 4231864 now JC-37501), 1st Dec. 1965.

Hav. Daud Sanga (No. 4230710 now JC-37502) and Hav. Edron Tirkey (No. 4232240 now JC-37503), 4th Dec. 1965.

The Mahar Regt.

To be Naib Subdr.

Hav. Nagar Mal (No. 9030499 now JC-37504), 22nd Dec. 1965.

To be Naib Subdr. (Clerk)

Hav. Clk. Hardial Singh Hira (No. 5421148 now JC-37505), 18th Jan. 1966.

The Intelligence Corps

To be Naib Subdr. (Clerk)

Hav. Clk. Gopika Ranjan Das (No. 7536321 now JC-37506), 17th Jan. 1966.

To be Naib Subdr.

Hav. Bhupal Singh Pharswan (No. 4034962 now JC-37507), 15th Jan. 1966.

Corps of Engineers

MES Mil. Cadre

To be Naib Subdr.

Hav. Hari Singh (No. 1418016 now JC-37508), 8th Nov. 1965.

G. SEN, Under Secy.

No. 590, dated 21st Feb. 1966.—The President is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY

Infantry

The Punjab Regt.

To be Subdrs.

Naib Sub. Mehar Singh (JC-12161), 1st March 1964.

Naib Sub. Sultan Singh (JC-21205), 1st May 1964.

Naib Sub. Naurang Singh (JC-25265), 5th May 1965.*

*(Granted seniority in the rank of Subdr. w.e.f. 10th Apr. 1965 without effect on pay and allowances.)

G. D. CHOWDHRY, Under Secy.

No. 591, dated 22nd Feb. 1966.—The President is pleased to revert Shri H. C. Mithal, offg. Statistical Officer to his tempy. post of Statistical Investigator w.e.f. 1st Feb. 1966.

M. D. DALAKOTI, Asstt. C.A.O.

No. 592, dated 14th Feb. 1966.—*Corrigendum*.—In M. of D. Gazette Notn. No. 1766, dated 7th July 1965 published on 24th July 1965 in so far as it relates to Shri M. R. Prasher, perm. Supdt./offg. Officer Supervisor,

For "M. R. Prasher",

Read "M. R. Prashar".

K. S. SUBRAMANIAN, Asstt. C.A.O.

No. 593, dated 21st Feb. 1966.—*Corrigendum*.—In M. of D. Notn. No. 2190, dated 14th Sep. 1962, published in the Gazette of India, dated 29th Sep. 1962, in so far as it relates to the grant of leave to Shri H. C. Lalla, tempy. A.S.W., is cancelled.

S. S. TANEJA, Asstt. C.A.O.

(NAVY BRANCH)

No. 594, dated 23rd Feb. 1966.—The President is pleased to make the following appointment :—

Shri PRABHAT CHANDRA GHOSH, perm. Chief Draughtsman, to be offg. Civ. Technical Officer (Design), on probation for two years, 28th Dec. 1965 (F.N.).

N. V. SWAMINATHAN, Under Secy.

No. 595, dated 14th Feb. 1966.—The President is pleased to make the following appointments :—

INDIAN NAVY

Permanent Commission

Special Duties List

CH. O.A. O. No. 50060 Sharan SINGH to be Ag. Sub-Lt. (SD)(ME) w.e.f. 30th Sep. 1963 vide N.Is. 127/59 & 77/63.

SC PO O. No. 41747 Narayana Ramanatha PAI to be Ag. Sub-Lt. (SD)(S) w.e.f. 31st Mar. 1964 vide N.Is. 127/59 & 77/63.

No. 596, dated 19th Feb. 1966.—The President is pleased to confirm the following officers w.e.f. the dates shown against their names under the provisions of S.R.O. 53/60 :—

Indian Naval Volunteer Reserve

(Permanent Commission)

Electrical Branch

Sub. Lt. Babu Ram, 1st Apr. 1963.

Supply and Secretariat Branch

Sub. Lt. A. P. Jain, 1st Apr. 1963.

Sub. Lt. P. K. A. Unny, 1st Apr. 1963.

Sub. Lt. N. K. Agrawal, 1st Apr. 1963.

Sub. Lt. J. N. Goel, 1st Apr. 1963.

Sub. Lt. B. Ratnam, 1st Apr. 1963.

Executive Branch

Ag. Sub-Lt. J. K. Sharma, 1st Oct. 1962.

No. 597, dated 14th Feb. 1966.—The President is pleased to confirm the under-mentioned officers :—

INDIAN NAVY

Permanent Commission

Special Duties List

Ag. Sub-Lt. (SD)(B) Prit Pal Singh to be Sub-Lt. (SD)(B) w.e.f. 28th Dec. 1964 with seniority of 31st Mar. 1963 (for promotion only) vide N.Is. 127/59 & 77/63.

Ag. Sub-Lt. (SD)(ME) Sharan Singh to be Sub-Lt. (SD)(ME) w.e.f. 28th Dec. 1964 with seniority of 30th Sep. 1963 (for promotion only) vide N.Is. 127/59 & 77/63.

Ag. Sub-Lt. (SD)(S) N. R. Pai to be Sub-Lt. (SD)(S) w.e.f. 31st Mar. 1965 with seniority of 31st Mar. 1964 (for promotion only) vide N.Is. 127/59 & 77/63.

No. 598, dated 22nd Feb. 1966.—The President is pleased to make the following promotions :—

Executive Branch

Lt. (SD)(G) to be Lt. Cdr. (SD)(G)

Abu Amin, 30th Sep. 1965.

Sub. Lts. (SD)(G) to be Lts. (SD)(G)

K. R. Nayak, Shamsher Singh and G. L. Mall, 30th Sep. 1965.

Sub. Lts. (SD)(TAS) to be Lts. (SD)(TAS)
K. P. Mukandan and Sita Ram, 30th Sep. 1965.

Sub. Lts. (SD)(B) to be Lts. (SD)(B)

K. Chandran and C. V. David, 30th Sep. 1965.

Sub. Lt. (SD)(C) to be Lt. (SD)(C)

K. P. V. Panikkar, 30th Sep. 1965.

Sub. Lt. (SD)(AV) to be Lt. (SD)(AV)

Niranjan Singh, 30th Sep. 1965.

Sub. Lt. (SD)(REG) to be Lt. (SD)(REG)

N. G. Nair, 30th Sep. 1965.

Engineering Branch

Sub. Lt. (SD)(OE) to be Lt. (SD)(OE)

A. C. Fletcher, 30th Sep. 1965.

Sub. Lts. (SD)(ME) to be Lts. (SD)(ME)

P. C. Mathew and C. V. Anthappan, 30th Sep. 1965.

Sub. Lt. (SD)(SW) to be Lt. (SD)(SW)

D. B. James, 30th Sep. 1965.

Electrical Branch

Sub. Lts. (SD)(P) to be Lts. (SD)(P)

A. K. Thomas and M. S. Rao, 30th Sep. 1965.

Sub. Lts. (SD)(R) to be Lts. (SD)(R)

B. K. Kapila, K. E. Paul and U. K. Pisharody, 30th Sep. 1965.

Sub. Lt. (SD)(AR) to be Lt. (SD)(AR)

A. K. P. Parrat, 30th Sep. 1965.

Supply & Secretariat Branch

Lt. (SD)(S) to be Lt. Cdr. (SD)(S)

R. F. Patil, 30th Sep. 1965.

Sub. Lt. (SD)(S) to be Lt. (SD)(S)

K. Subramaniam, 30th Sep. 1965.

Sub. Lt. (SD)(CA) to be Lt. (SD)(CA)

P. S. Fernandes, 30th Sep. 1965.

Sub. Lt. (SD)(W) to be Lt. (SD)(W)

K. C. Lakshmanan, 30th Sep. 1965.

Medical Branch

Sub. Lt. (SD)(WM) to be Lt. (SD)(WM)

T. P. Singh, 30th Sep. 1965.

INDIAN NAVY

Permanent Commission

Executive Branch

Lts. to be Lt. Cdrs.

M. S. Rawat, 16th Aug. 1965 vide N. I. 166/61.

O. P. Laul, 16th Sep. 1965 vide N.I. 166/61.

Instructor Branch

Instr. Lt. to be Instr. Lt. Cdr.

T. M. Thimmaya, 30th Sep. 1965 vide N.I. 132/60.

Supply & Secretariat Branch

Sub. Lt. to be Lt.

C. L. N. D'Silva, 1st Nov. 1965 vide N.I. 69/61.

Executive Branch

Sub. Lts. to be Lts.

V. Pasricha, 16th Sep. 1965 vide N.I. 33/57.

R. N. Ganesh, 1st Oct. 1965 vide N.I. 33/57.

Electrical Branch

Sub. Lt. to be Lt.

P. K. Jindal, 30th Oct. 1965 vide N.I. 41/50 and Ministry of Defence letter No. OF/3919/59/NHQ/226/C/D(N-II), dated 13th Feb. 1959.

INDIAN NAVY

Short Service Commission

Engineering Branch

Sub. Lt. to be Lt.

Rajkaran Singh, 28th Sep. 1965 vide N.I. 69/61.

No. 599, dated 14th Feb. 1966.—The President is pleased to make the following promotions vide S.R.O. 53/60 :—

Indian Naval Volunteer Reserve

Permanent Commission

Executive Branch

Ag. Sub-Lt. to be Sub-Lt.

J. K. Sharma, 1st Oct. 1963 with seniority of 1st Oct. 1962.

Sub-Lts. to be Lts.

R. C. Paul, R. C. Rastogi, M. M. S. Saxena, D. L. A. Lobo, and J. K. Sharma, 1st Oct. 1965.

*Supply and Secretariat Branch**Sub-Lts. to be Lts.*

R. Namasivayam and B. N. Singh, 1st Jan. 1965.

G. S. Bohra, M. Kumar, V. K. Sethi, A. N. Saha and S. M. Nayer, 1st Oct. 1965.

*Electrical Branch**Sub-Lts. to be Lts.*

K. P. R. Nair, 1st Jan. 1965.

R. Suryanarayana, 1st Oct. 1965.

No. 600, dated 14th Feb. 1966.—The President is pleased to permit the undermentioned officer to relinquish his commission :—

INDIAN NAVY

Permanent Commission

Lt. G. E. T. Davey, 15th Dec. 1965.

No. 601, dated 19th Feb. 1966.—The following officers are permitted to resign from the service :—

*Indian Naval Volunteer Reserve**Permanent Commission**Electrical Branch*

Sub-Lt. B. S. Bhar, 21st Apr. 1963.

Supply and Secretariat Branch

Sub-Lt. R. N. S. Kaushik, 25th Jan. 1964.

Executive Branch

Ag. Sub-Lt. (On probation) T. P. Yadava is discharged from service from 26th Dec. 1963 under Article 25 of S.R.O. 53/60.

*Indian Naval Reserve**Permanent Commission**Executive Branch*

Lt. (On probation) K. R. Ray, 1st May 1964.

*Indian Naval Volunteer Reserve**Permanent Commission**Executive Branch*

Sub-Lt. (On probation) G. S. Jolly, 30th Aug. 1964.

Supply and Secretariat Branch

Sub-Lt. (On probation) M. P. Bhaya, 1st Apr. 1965.

No. 602, dated 19th Feb. 1966.—*Corrigenda*.—(i) In M. of D. Notn. No. 1596, published in the G. of I. dated 3rd July 1965 below 'Executive Branch' under heading "INDIAN NAVAL VOLUNTEER RESERVE (Permanent Commission)" delete the name of "Sub Lt. R. C. Johri and insert below as follows :—

Sub. Lt. R. C. Johri, 28th Apr. 1964.

(ii) In M. of D. Notn. No. 1035, dated 17th Apr. 1965, published in the Gazette of India, dated 1st May 1965, relating to R. E. Mistry, the following will be inserted over heading "EXECUTIVE BRANCH" sub heading 'Sub-Lt. to be Lt.'

*Indian Naval Reserve**Permanent Commission*

(iii) In M. of D. Notn. No. 1032, dated 19th Apr. 1965 published in the Gazette of India, dated 1st May 1965—

Under heading

"INDIAN NAVAL VOLUNTEER RESERVE"

Under Group

"SUPPLY AND SECRETARIAT BRANCH"

For "Sub-Lt. I. D. Naqua"

Read "Lt. I. D. Naqua"

(iv) In M. of D. Notn. No. 43, dated 21st Dec. 1965 published on 1st Jan. 1966 :—

For Lt. Subrabonia GOPALAKRISHNAN read Lt. Subrabonia GOPALAKRISHNAN.

For Lt. Surinder Singh CHAUDHARI read Lt. Surinder Singh CHAUDHRI.

H. N. PRASAD, Under Secy.

(AIR BRANCH)

No. 603, dated 16th Feb. 1966.—The President is pleased to grant Permanent Commission (on probation) to the undermentioned under A.F.Is. 49/51, 50/51 and 19/63 (as amend-

ed) read in conjunction with Govt. of India, Min. of Def. letters No. Air HQ/23967/5/PP&R/7665/D(A-III), dated 4th Aug. 1962, Air HQ/23949/145/PP&R/12590/D(A-III), dated 29th Nov. 1962 (as amended) and Air HQ/23967/8/PP&R/7206/D(A-III), dated 23rd July 1962 :—

INDIAN AIR FORCE

A. & S. D. Branch

(*Ex-Flt. Cdt. to be Pilot Officers*)

Yashpal Singh TOMAR (9368), Prabir Kumar BASU (9369), 10th Apr. 1965.

Equipment Branch

(*Ex-Flt. Cdt. to be Pilot Officer*)

ASHOK KUMAR (9371), 10th Apr. 1965.

(*Ex-NDA Flt. Cdt. to be Pilot Officer*)

HARI PAL SINGH (9370), 10th Apr. 1965.

Education Branch

(*Ex-Flt. Cdt. to be Pilot Officers*)

Mithu Lal SHARMA (9341), HAR PAL SINGH (9343), Ramesh Chand JAIN (9344), Rudra Dutta SHARMA (9346), Mahadevan SIVAKUMAR (9347), Ayyagari Haranath BABU (9348), Ravindra Nath SHARMA (9349), Ashok Kumar MUKERJI (9350), Ashok Narayan DESHPANDE (9351), Raj Kumar BHATIA (9352), Prakash Chandra BHATNAGAR (9353), Joseph Rajarethinam SALETH (9354), Thota Durga Koti PRASADA RAO (9355), Suresh Chander SHARMA (9356), Udaya Bhaskara Murty BHAMIDIPATI (9357), Devender Kumar SHARMA (9358), Shiv Kumar KASHYAP (9359), Rajendra Singh BHADRAURJA (9360), Rajinder Kumar VASISHT (9361), Hindupur Srinivasachar KRISHNAMURTHY (9362), Ramesh Chander M. RAI (9363), 27th Mar. 1965.

Uma Kanta BAISYA (9372), Satya Prakash RAGHUVANSHI (9373), Dinkar Damodar DESHPANDE (9374), Ram Prakash KAPUR (9375), Kiran Chander VAID (9376), 10th Apr. 1965.

(*Ex-Airmen Flt. Cdt. to be Pilot Officers*)

(213765) Sgt. Zorawar Singh MAHOTRA (9342), (206992) Sgt. Kashi Ram YADAV (9345), 27th Mar. 1965.

No. 604, dated 16th Feb. 1966.—The President is pleased to grant Permanent Commission (on probation) to the undermentioned under A.F.I. 49/51 as amended read in conjunction with Govt. of India, Min. of Def. letter No. Air HQ/23967/8/PP&R/7206/D(A-III), dated 23rd July 1962 :—

INDIAN AIR FORCE

Education Branch

(*Ex-Flt. Cdt. to be Pilot Officer*)

VIRENDRA KUMAR (7778), 19th Oct. 1963.

No. 605, dated 17th Feb. 1966.—The President is pleased to grant Permanent Commission (on probation) to the undermentioned under A.F.I. 50/51 and 19/63 as amended read in conjunction with Govt. of India, Min. of Def. letter No. Air HQ/23967/43/PP&R/3239/D(A-III), dated 25th March 1963 and Air HQ/23949/145/PP&R/9449/D(A-III), dated 13th Sep. 1963 :—

INDIAN AIR FORCE

Equipment Branch

(*Ex-Airmen Flt. Cdt. to be Pilot Officers*)

(214035) Sig. III Baldev Raj SHARMA (9233) and (206722) Sgt. Gopal Singh BAWEJA (9236), 23rd Dec. 1964.

Accounts Branch

(*Ex-Flt. Cdt. to be Pilot Officer*)

Bhabani Prasad DAS GUPTA (9246), 23rd Dec. 1964.

No. 606, dated 16th Feb. 1966.—The President is pleased to grant Short Service Commission (on probation) to the undermentioned under A.F.I. 19/63 and Govt. of India, Min. of Def. letter No. AIR HQ/23949/150/PP&R/2586/D(A-III), dated 20th March, 1962 read in conjunction with A.F.I. 4/S/50 :—

INDIAN AIR FORCE

Tech. (Sigs.) Branch

(*Ex-Airmen Flt. Cdt. to be Pilot Officers*)

(205936) Sgt. Satish Kumar BHATIA (8301), (29761) Flt. Sgt. Patincharaevetil SUKUMARAN (8303), (27667) Flt. Sgt. Kuldip Singh GILL (8307), (14538) M. W. O. Ashutosh DATTA (8316), (202078) Flt. Sgt. Anantha Krishna SWAMINATHAN (8325), 26th Mar. 1964.

Tech. (Eng.) Branch

(*Ex-Airmen Flt. Cdt. to be Pilot Officers*)

(40088) Cpl. Puthenuetil Jacob LOUIS (8310), (24478) W. O. Mohinder SINGH (8321), and (24479) Flt. Sgt. MOHINDER SINGH (8328), 26th Mar. 1964.

*Tech. (Elect.) Branch**(Ex-Airmen Flt. Cds. to be Pilot Officers)*

(204558) Sgt Kodakkat Arakkil BALAKRISHNAN (8304), (200776) Sgt Jagdish Bahadur KHARE (8313), (38785) Sgt. Ajit Kumar SINGH (8315), (201667) Sgt. Bhagwan Ramchandra DESHPANDE (8317), (200794) Sgt. Kirat Singh SACHAR (8322), 26th Mar. 1964.

No. 607, dated 21st Feb. 1966.—The President is pleased to confirm the undermentioned Air Force Officer who was granted Permanent Commission (on probation):—

INDIAN AIR FORCE

Education Branch

Pt. Offr. Virendra Kumar (7778), 19th Oct. 1963.

No. 608, dated 16th Feb. 1966.—The President is pleased to confirm the undermentioned Pt. Offr. who was granted Permanent Commission (on probation) w.e.f. 4th Aug. 1964. He is also promoted to the substantive rank of Fg. Offr w.e.f. the date stated against his name:—

INDIAN AIR FORCE

G. D. (P) Branch

R. Ramesh (8781), 4th Aug. 1965.

No. 609, dated 17th Feb. 1966.—The President is pleased to promote the undermentioned Flt. Lts. to the sub. rank of Sqn. Ldrs.:—

INDIAN AIR FORCE

G. D. (P) Branch

M. L. Chaturvedi (4787), S. Mathrani (4788), S. D. Mohan (4789), I. S. Sandhu (4790), I. G. Shahani (4791), M. S. Jatar, Vr. C. (4793), M. M. Batra (4794), E. G. Salins (4796), D. K. Ghosh (4797), V. C. Goodwin (4798), M. V. Kashikar (4801), V. P. Sathe (4802), P. S. Sandhu (4803), M. K. Bhattacharyya (4804), D. Keelor, Vr. C. (4805), H. S. Goraya (4808), Y. S. Hegde (4812), S. Handa, Vr. C. (4816), D. S. Jaswal (4817), T. Keelor, Vr. C. (4818), C. K. Sharma (4821), P. K. Varma (4822), Charanjit Singh (4823), B. Johnson (4826), R. K. Suri (4828), S. Thakar (4829), V. K. Saxena (4830), S. S. Malhotra (4831), K. N. Johry (4834), I. J. S. Parmar (4835), D. A. Augier (4836), N. I. Narayana Rao (4837), B. D. Dangwal (4839), 6th Nov. 1965

Met. Branch

S. Lakshminarayana (5565), R. S. Chhatwal (5566), 17th Nov. 1965.

V. D. Iyer (4389), A. G. Garde (4388), 22nd Nov. 1965

No. 610, dated 14th Feb. 1966.—The President is pleased to permit the undermentioned Pilot Officers to relinquish their Short Service Commission from 27th December, 1964 and grant them Permanent Commission with effect from the same date under A.F.I. 4/S/50. They are also granted antedate as mentioned against their names under A.P.I. 8/5/63:—

INDIAN AIR FORCE

Tech. (Eng.) Branch

K. Ramabramanian (7609), P. R. Gupta (7615), K. V. Kandaswamy (7612), N. B. Gondal (7613), K. S. A. Swarup (7611), R. S. Reddy (7614) and R. Sitaraman (7610), with seniority for pay and promotion from 27th June 1962.

Tech. (Sigs.) Branch

S. Muthukkaruppan (7643), K. N. Paradkar (7639), R. K. Rajendran (7633), A. Kumar (7644), K. K. Mehta (7638), V. K. Kakkar (7631), B. S. Barnes (7619), K. P. Sangiah (7635), K. Krishnameerthi (7616), M. Ghosh (7641) and P. N. Kapri (8627), with seniority for pay and promotion from 27th June 1962.

Tech. (Airt.) Branch

P. K. M. Sreedhar (8623), E. S. Ramakrishnan (7648), J. D. Shinde (8624) and Niranjan Singh (8625), with seniority for pay and promotion from 27th June 1962.

No. 611, dated 14th Feb. 1966.—The President is pleased to permit the undermentioned Air Force Officers to relinquish their Short Service Commission with effect from 27th Dec 1964 and to grant them Permanent Commission in the rank of Pilot Officer from the same date with seniority for pay and promotion from the dates of their Short Service Commission under A.F.I. 4/S/50:—

INDIAN AIR FORCE

Tech. (Sigs.) Branch

M. K. Pande (7624), N. K. Maharishi (7628), P. S. Mathur (7618), T. Mathew (7621), S. K. Puri (7634), K. C. Vyas (7629), R. V. Jog (7617), G. D. Basra (7632) and S. K. Bhatti (7630).

No. 612, dated 21st Feb. 1966.—The President is pleased to permit the undermentioned Pilot Officer to relinquish his Short Service Commission from 9th May, 1964 and grant him Permanent Commission with effect from the same date under A.F.I. 4/S/50. He is also granted antedate as mentioned against his name under A.P.I. 8/S/63:—

INDIAN AIR FORCE

Tech. (Sigs.) Branch

R. S. Tiwana (7831), with seniority for pay and promotion from 9th Nov. 1961.

No. 613, dated 16th Feb. 1966.—The undermentioned officer is to forfeit twelve months seniority of rank, that is, to take precedence in the rank held by him as if his name appeared between those of Amar Nath Oberoi (5385) and Amar Pal Singh Aurora (5283) in the Air Force List 'April 1965'.

INDIAN AIR FORCE

G. D. (P) Branch

Pt. Lt. Sadanand Trasi (5080), 27th Aug. 1965.

D. S. IYER, Under Secy.

No. 614, dated 16th Feb. 1966.—*Corrigendum*.—In M. of D. Notn. No. 276, dated 19th Jan. 1966 published on 29th Jan. 1966 in the second line

For the word "officiate"

Read "appoint"

P. V. R. RAO, Secy.

